





REF: GPIL/NSE&BSE/2021/4302

Date: 01.02.2021

To,

1. The Listing Department,

The National Stock Exchange of India Ltd,

Exchange Plaza, BandraKurla Complex,

Bandra (E), MUMBAI - 400051

NSE Symbol: GPIL

2. The Corporate Relation Department,

The BSE Limited, Mumbai,

1st Floor, Rotunda Building,

Dalal Street, MUMBAI - 400 001

BSE Security Code: 532734

Dear Sir(s),

SUB: Publication of Unaudited Financial Results for the Q3FY21.

We have published the Extracts of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31.12.2020 in editions of "The Business Standard" (Hindi & English) "Business Line" "The Economics Times" and "Financial Express" (English). Please find enclosed herewith a copy of the same.

This is for your information and records please.

Thanking you

Yours faithfully

For, GODAWARI POWER AND ISPAT LIMITED

COMPANY SECRETARY

Encl: As above



Godawari Power & Ispat Limited

An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 certified company CIN L27106CT1999PLC013756

Registered Office and Works: Plot No. 428/2, Phase 1, Industrial Area, Siltara, Raipur - 493111, Chhattisgarh, India
P: +91 771 4082333, F: +91 771 4082234

Corporate Address: Hira Arcade, Near New Bus Stand, Pandri, Raipur - 492001, Chhattisgarh, India

P: +91 771 4082000, F: +91 771 4057601

WINSOME DIAMONDS AND JEWELLERY LIMITED Liquidator's Address-702, Janki Centre, Dattaji Salvi Road, Off Veera Desai Road, Andheri West, Mumbai - 400053; Contact: +91 9082156208; Email: liquidator.winsome@gmail.com

E-AUCTION UNDER INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 Date and Time of Auction : 26th February 2021(Friday) from 11:00 A.M. to 01:00 P.M.

(with unlimited extension of 5 minutes ea

Sale of assets owned by WINSOME DIAMONDS AND JEWELLERY LIMITED (In Liquidation) forming part of Liquidation Estate under Section 35(f) of IBC, 2016 read with Regulation 33 of Liquidation Regulations. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER THERE IS AND NO RECOURSE BASIS".

The Sale will be done by undersigned through e-auction service provider M/s E-Procurement Technologies Limited – Auction Tiger via website

	s://ncltauction.a	A VALUE DE LA COLOR DE LA COLO			(Ar	mount in INR
Sr. No.	Assets	Address	Area	Reserve price	EMD Amount	Incremental Bid Amount
1		BA	NGALOR	E	-	
A	Land & Building Plot no. 143 5 nos. of RCC structures and 3 nos. of load bearing sheds	Bommasandra Industrial Area, Hebbagodi			1,94,00,000	2,50,000
2			CHENN	Al		
A	Plant and Machinery Furniture and Fixtures	Unit No. 46, 2nd Floor, SDF-3, Madras Export Processing Zone- SEZ, Tambaram,	•	2,92,000	29,000	1,000

		600049				
3	div		COCHII	N		3
A	Plant and Machinery Furniture and Fixtures	Plot No. 17/ SDF, 4th Floor, CSEZ, Kakkanad, Cochin-682037	•	1,96,000	19,600	1,000
4			GOA			
A	Leasehold Property 2 nos. of RCC structures	Plot 1 & 1A, of Thivim Industrial Estate Part 500 & 502 Colvale,	area 5400	4,87,30,000	48,73,000	1,00,000

Goa- 403517 6760

Chennai-

			sq. mtr.			
5.			JODHPI	JR		
A	Plant and Machinery	Plot No. E- 7, Marudhara Insustrial Area, Basni II Phase, Jodhpur– 342001	•	7,50,000	75,000	5,000
6.			KOLKA	TA		
A	Leasehold Property	Module No. 1 – NW, 1st Floor, Manikanchan SDF Building (SEZ), Sector-V, Bidhannagar (Salt Lake City), District-24- Parganas (North), Kolkata West Bengal – 700091	325 sq. mtr.	1,55,90,000	15,59,000	50,000
В	Plant and Machinery Furniture and Fixtures	Module No. 1 – NW, 1st Floor, Manikanchan SDF Building (SEZ), Sector-V, Bidhannagar		5,00,000	50,000	2,500

		(Salt Lake City), District-24- Parganas (North), Kolkata, West Bengal – 70009	8 88	2 2		
7.			KUTCH	1		
A	Wind Turbine Generator	Location No. M 507 Service Center 2, Survey No. 35, Nani Sindhodi, Ta. Abdasa, Dist Kutch, Gujarat— 370655	1.5MW	2,76,02,000	27,60,000	50,000
8			MIIMR	M		

٠.			INCHIDA			
A	Commercial Office Unit No. 803 to 822 & 906, 907, 908 & 910 (8th and 9th Floor) Total 24 units	1551, Plot No. A, 55 Gamdevi Road, Mumbai	31.9 sq. mtr. (Each Unit)	1,02,40,000 (Each Unit)		25,000 (Each Unit)
В	Commercial Office Unit No. 801 & 824 (8th Floor) Total 2 units	Panchsheel Plaza, C.S. No 1551, Plot No. A, 55 Garndevi Road, Mumbai - 400 007	21.4 sq. mtr. (Each Unit)	67,06,000 (Each Unit)	6,70,000 (Each Unit)	25,000 (Each Unit)
С	Commercial Office Unit No. 802 & 823	Panchsheel Plaza, C.S. No 1551, Plot No.	20.2 sq. mtr. (Each	63,28,000 (Each Unit)	6,32,000 (Each Unit)	25,000 (Each Unit)

4 on 4th Floor

Unit No 2, 3 &

4 on 5th Floor Unit No 2, 3 &

Last date for EMD submission

Date and Time of E-auction

	(8th Floor) Total 2 units		Unit)			
9.	(0)		SURAT	542	4 11W	
A	Unit No 2, 3, 5 & 6 in Basement Unit No 2, 3, 5 & 6 on Ground Floor Unit No 2, 3, 4, 6, 7 & 8 on 1st Floor Unit No 2, 3 & 4 on 3rd Floor Unit No 2, 3 & 4 on 3rd Floor Unit No 2, 3 &	Kesarba Market, Gotalawadi, Katargam, Surat, Gujarat– 395004		10,72,10,000	1,07,21,000	2,00,000

4 on 6th Floor Unit No 2, 3 8 4 on 7th floor Unit No 2. 3 & 4 on 8th Floor Last date for submission of : 15th February 2021 (Monday) **Eligibility Documents** Last date for information sharing, : 22nd February 2021 (Monday) eite visit, discussion meeting

: 23rd February 2021 (Tuesday) : 26th February 2021 (Friday) from 11:00 A.M. to 01:00 P.M. The detailed Terms & Conditions, E-Auction Bid Document, Declaration & other details of online auction are available on https://ncltauction.auctiontiger.net and

company website http://winsome-group.in/ in case of any clarifications, please contact the undersigned at

CA Amit Gupta As Liquidator of Winsome Diamonds & Jewellery Limited vide order dated 1st September 2020 IBBI Registration: IBBI/IPA-001/IP-P00016/2016-17/10040 Address : 702, Janki Center, Dattaji Salvi Road, Off Veera 2021 Desai Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053 Date : 01st February 2021 Email: liquidalor.winsome@gmail.com THE ASKA COOPERATIVE SUGAR INDUSTRIES LTD.

P.O. Nuagam (Aska) - 761111, Ganjam District, Odish Ph.No.06822-273464, 273465, 273737, Fax: 06822-273023 email:askasugar@yahoo.co.in, GSTIN: 21AAAAT5989L1Z0

QUOTATION CALL NOTICE

No.PUR/4851/4852/4853/4854/4855/4856 Dt.30.01.2021 The Aska Cooperative Sugar Industries Ltd., Aska invites seale Quotations from Manufacturer/Authorized Dealers having GSTIN for supply of 200ML empty glass bottles, ROPP Cap, Corrugated Boxes, Lable, Adhesive Gum, Ordinary gum etc. Parties are requested to give their offer with detail terms & conditions on or before 05:00PM on 17/02/2021 & 18/02/2021 respectively & visit our website www.askasugar.com for details of the Quotation Call Notice. Managing Director

STATE BANK OF INDIA

Premises & Estate Department, 3rd Floor, LHO, Hoshangabad Road, Bhopal-462011

PRE-QUALIFICATION OF CIVIL CONTRACTORS Assistant General Manager, State Bank of India, Premises & Estat Department, Local Head Office, Bhopal invite Pre-Qualification application

for Construction of Collectorate Branch & Mega Currency Chest at Jagdalpur, Chhattishgarh. Estimated cost of the project is Rs. 330 Lakhs (approx.) plus GST as applicable

pprox.) plus GS1 as applicable.
Interested agencies / contractors should apply on the prescribed format, which can be downloaded from SBI website www.sbi.co.in under Procurement News and may submit the prequalification application. Last date of submission of Pre-Qualification Application to this Office is on or before 22.02.2021 by 03.00 PM
Corrigendum / Amendment, if any would be hosted on the website only.

Hence, prospective applicants are advised to visit website regularly for above purpose. SBI reserves the right to accept / reject any / all tenders without

assigning any reason. ASSTT. GENERAL MANAGER (P & E) BHOPAL CIRCLE

HAVE A GOOD BUSINESS **MORNING! Business Standard** newspaper delivering safely to homes and offices For details, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard Insight Out

bsindia 💟 bsindia

business-standard.com

Business Standard DELHI EDITION

Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

Editor: Shyamal Majumdar

RNI NO. 57376/1994

Readers should write their feedback at feedback@bsmail.in Ph. 011-23720202, Fax :+91-11-23720201

For Subscription and Circulation enquiries please contact: Ms. Mansi Singh **Head-Customer Relations** Business Standard Private Limited. H/4 & I/3, Building H, Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400013 E-mail: subs bs@bsmail.in "or sms. SUB BS to 57007"

DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to present an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form

their own judgement. Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned.

Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction, transmission or redissemination of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and criminal liabilities.

No Air Surcharge

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक INDIAN OVERSEAS BANK

Balance Sheet Management Departm Central Office:

763, Anna Salai, Chennai-600002 Indian Overseas bank (IOB) invites for the following: RFF Reference Number BSMD/TDS/RFP/01/2020-2021

REQUEST FOR PROPOSAL FOR APPOINTMENT OF TDS CONSULTANTS FOR PROVIDING **END TO END SOLUTION AND** SERVICES FOR FILING OF TDS (TAX DEDUCTED AT SOURCE) RETURNS FOR

FY 2021-22 TO FY 2023-24

The RFP document for the above is available in bank's website www.iob.in/ https://iobtenders. auctiontiger.net For RFP details and future amendments, if any, keep referring to the above websites.

WABCO INDIA LIMITED

CIN: L34103TN2004PLC054667 Registered Office : Plot No.3 (SP), III Main Road, mbattur Industrial Estate, Chennai 600058. email: cvcs.info.india@zf.com Website: www.wabcoindla.com Felephone No.91 44 42242000, Fax No.91 44 42242009

NOTICE

NOTICE is hereby given, pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 10th February, 2021, to consider and approve inter alia, the unaudited financial results of the Company for the quarter ended 31st December, 2020.

For ZF Group - WABCO INDIA LIMITED Chennai M C Gokul Company Secretary 29.01.2021

Govt. of West Bengal ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER for IFO

On behalf of the Project Director, the Executive Engineer (A-M), SPMU WBADMI Project, 5th floor, ICMARD Building Kolkata - 67 invites e-tender for procurement of two types of Fish Net (Drag Net & Cast Net) from reputed Manufacturer/dealers/agency against e-NIT No. ADMIP/IFQ/ 20-21/15 of e-Tender ld nos. 2021_WRDD_321312_1.

Intending Bidders are requested to visit the website: wbetenders.gov.in for details & last date for IFQ is on 13.02.2021 up to 2.00 PM.

> A.P.D. WBADMI Project

Bomul

BENGALURU CO-OP. MILK UNION LTD., [BENGALURU DAIRY] Dr. M.H. MARIGOWDA ROAD, BENGALURU-560029:

E-mail Address bamulpurchase@gmail.com

Website: www.bamulnandini.coop. Phone: 080-26096248

Date: 25.01.2021 IFT No. BAMUL/PUR//T&C e-Tender-219/2020-21 **TECHNICAL CUM COMMERCIAL TENDER THROUGH**

THE KARNATAKA PUBLIC PROCUREMENT PORTAL Bengaluru Co-op Milk Union Ltd., (BAMUL) Bengaluru, invites e-tender through e-Procurement Portal from

SI	Particulars		Qty	Tender No.
01	Design, Supply & Installation of 2 HP Single Phase Chaff Cutter with accessories			219
1	Access to E-tender Documents	25.01.2021 to 15.0	2.2021 t	ill 02.00 PM
2	Pre-Bid Meeting / Tender clarification date & time	08.02.2021 till 05.00 PM		
3	Last date for submission of tender/ quoting	15.02.2021 till 02.00 PM		
4	Date & time for opening Technical Tender	16.02.2021 at 02.	35 PM	
5	Date & time for opening Commercial Tender	20.02.2021 at 11.30 AM		
6	Place of opening of Technical and Commercial Tender	BAMUL (Bengalur	u Dairy)	Board Room

The Tenderers may submit separate tender for the above, Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.

The Earnest money deposit (E.M.D.) valid for 45 days beyond the validity of the tender i.e. total for 135 days, Tender processing Fee, modes of e-payment, tender document details and Other details are mentioned in www.eproc.karnataka.gov.in. Tender No: KMF/BAMUL/PUR/2020-21/219.

*The Bidders should read the existing specification as

In sl no-5 - Bearing: UCP207-20, UCP 205-16-NTN/ 6304- SKF/Equivalent

In sl no-16 -2nd point - extra 1no V belt shall be provided - Fenner Make / Equivalent

Sd/- MANAGING DIRECTOR TENDER INVITING AUTHORITY, BAMUL



GUJARAT INDUSTRIES POWER COMPANY LTD.

Regd. Office: P.O. Ranoli - 391 350, District Vadodara (Gujarat) Tel. No. (0265) 2232768, Fax No. (0265) 2230029 Email ID: investors@gipcl.com Website: www.gipcl.com, CIN - L99999GJ1985PLC007868

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31" DECEMBER 2020

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2020 Unaudited	Year to date figures for current period ended 31.12.2020 Unaudited	Corresponding Quarter ended 31.12.2019 Unaudited
1)	Total Income from Operations	33,892.55	102,503.40	35,915.79
2)	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	7,593.90	20,774.66	6,307.84
3)	Exceptional Items	1545	14	-
4)	Net Profit /(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	7,593.90	20,774.66	6,307.84
5)	Net Profit /(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	3,192.26	13,972.54	4,896.88
6)	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	3,735.85	15,978.99	4,776.40
7)	Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	15,125.12	15,125.12	15,125.12
8)	Earning per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations) (not annualised) a) Basic (Rs.) b) Diluted (Rs.)	2.11 2.11	9.24 9.24	3.24 3.24

- 1) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the said Financial Results are available on websites of Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on Company's website (www.gipcl.com).
- 2) The above Unaudited Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and taken on record & approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 30th January 2021.
- The Company has designated an exclusive e-mail ID viz. investors@gipcl.com for investor grievance redressal

Place: Vadodara Date: 30° January, 2021. For Gujarat Industries Power Company Limited | Vatsala Vasudeva | **Managing Director**



GODAWARI POWER & ISPAT LIMITED

Regd. Office: 428/2, Phase-I, Industrial Area, Siltara, Raipur (C.G.) Corporate Office: Hira Arcade, Pandri, Raipur (C.G.) 492001 CIN.: L27106CT1999PLC013756, Tel: 0771-4082000, Website: www.godawaripowerispat.com, E-mail: yarra.rao@hiragroup.com

PERFORMANCE HIGHLIGHTS (CONSOLIDATED)



EBITA 163%





EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020

		CONSOLIDATED 3 MONTHS ENDED 9 MONTHS ENDED Unaudited						
S.	Particulars						YEAR ENDED	
No.							Audited	
		31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020	
1	Total income from Operations	1132.49	967.49	841.51	2812.29	2505.44	3293.18	
2	Earnings Before Interest, Depreciation Tax (EBITDA)	347.86	235.21	132.29	741.89	475.64	628.90	
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	275.55	155.57	47.19	507.72	211.70	280.07	
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	275.55	155.57	47.19	507.72	211.70	269.79	
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	166,36	103.76	30.34	320.48	140.21	174.43	
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	180.20	112.95	33.66	348.83	140.02	166.11	
7	Paid Up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	34.11	34.11	34.11	34.11	34.11	34.11	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)(beforeand after extraordinary items) - (a) Basic	45.64	29.55	8.41	88.39	37.86	47.33	
	(b) Diluted	45.64	29.55	8.41	88.39	37.86	47.33	

(b) Diluted 45.64

S.	Particulars	3 MONTHS ENDED 9 MONTHS ENDED Unaudited					YEAR ENDED
No.							Audited
		31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
1	Total Income From Operations	954.47	876.96	719.73	2406.29	2129.89	2776.90
2	Earnings Before Interest, Depreciation Tax (EBITDA)	280.03	200.42	96.98	577.68	337.30	442.90
3	Profit/(Loss) before tax	292.56	144.28	35.65	476.00	149.66	197.64
	5.600			27.72		-200 2000	70.000

4 Profit/(Loss) after tax 203.03 94.17 21.09 321.82 94.45

Notes: 1. The Financial Results of the company for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 30th January, 2021 and the Limited Review of the same has been carried out by the Auditors.

2. The above is an extract of the detailed format of financial results filed for the quarter & nine months ended 31st December, 2020 filed with stock exchanges under regulation 33 & other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the financial results are available on the stock exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.godawaripowerispat.com)

For and on behalf of Board of Directors

Abhishek Agrawal **Executive Director**















Ansal Housing Limited

- An ISO 9001:2015 Com (Formerly known as Ansal Housing & Construction Ltd.) पंजीकृत कार्यालय ६०६, ६वां तल, इंद्र प्रकाश, 21 बाराखंबा रोड, नई दिल्ली–110001

प्रधान कार्यालय २एफ-एएवसीएल, दसरा तल, अंसल प्लाजा, सेक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.-201010 ई-मेल : ahl@ansals.com वेबसाइट : www.ansals.com सीआईएन : L45201DL1983PLC016821

सूचना

भारतीय प्रतिमूत्ति एवं विनियमन बोर्ड (सूषीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के महेनजर एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 31 दिसम्बर 2021 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के लिए अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित आधार पर) साथ अन्य विषयों पर विचार एवं अनुमोदन के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बृहस्पतिवार, 11 फरवरी, 2021 को आयोजित होगी।

और अधिक विवरण कंपनी की वेबसाइट यानी www.ansals.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर देखा जा सकता है।

कते अंसल हाउसिंग लिमिनेज

(एस.एन. ग्रोवर) अपर वी.पी. एवं कंपनी सचि सदस्यता सं.: एफ 4055 स्थान : वैशाली, गाजियाबाद



स्ट्रैस्ड एसेट्स मैनेजमेंट शाखा, 4वां तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली—110008 फोन नं. 011-41709201 / 43026349

प्वाइंट, मुंबई–400021 (आपकी सूचना हेतु मात्र)

सर्स जय पॉलीकैम इंडिया लिमिटेड, बी–115, श्री संदीप सिंह मधोक– निदेशक डी–97, डिफें ओखला इंडस्टियल एरिया फेज-कालोनी, नई दिल्ली-110024

श्री इंद्रपाल सिंह संधु– निदेशक, 213, बी ब्लॉक, श्री सतिन्दर पाल सिंह मधोक– निदेशक डी–97 डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024 श्री हरप्रीत सिंह— निदेशक, 122/4सी, गली नं. 2, जय पॉलीकैम इंडिया लिमिटेड का परिसमापव शंकर नगर, कृष्णा नगर, नई दिल्ली–110051 708 / 1006, रहेजा सेन्टर, फ्री प्रेस मार्ग, नरिम

महोदय,

सं: खाता मेसर्स जय पॉलीकैम इंडिया लि. और इसके निदेशकों को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में घोषणा

हम मेसर्स जय पॉलीकैम इंडिया लि. और इसके निवेशकों श्री संदीप सिंह मधोक, श्री इंद्रपाल सिंह संधु, श्री हरपीर सिंह और श्री सतिन्दर पाल सिंह मधोक को निम्नलिखित आधार पर जानबृझकर चूककर्ता घोषित करने के लिए कारण वताओं नोटिस नं. SAMDEL:01:NPA:JPIL:2020-21:445 दिनांकित 03.11.2020 और 14.11.2020 को समाचार प व्यकाशन का संदर्भ देते हैं।

ईवाई की फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट दिनांकित 07.12.2018 के अनुसार लेखापरीक्षक ने निम्नलिखित प्रेक्षणों पर ध्य

• 01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2018 अवधि के लिए बैंक विवरण की समीक्षा के आधार पर जय पॉलीकैम के बिजने प्रचालनों से इतर वाली पार्टियों के चयन हेत लगभग रु. 61 करोड़ राशि का बर्हिगमन पाया है। इन पर पार्टियों पर व ाई पब्लिक डोमेन सर्च इंगित करती हैं कि इनमें से अधिकतर रियल एस्टेट क्षेत्र (आवासीय और वाणिज्यिक) में थीं निधियों का संभावी परिवर्तन इंगित करते हुए कुछ बँकों द्वारा जय पॉलीकैम के एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने के बाव भी किए गए थे।

• 31.03.2015 को देनदारी शेष रु. 1452.69 करोड़ था जो आगे अगले वित्तीय वर्ष (2015–16) में घटकर रु. 679.6 करोड़ हो गया। इससे इंगित होता है कि या तो प्राप्तियाँ प्राप्त हुई या बट्टे खाते की गईं। इसी वर्ष के लिए वित्तीय

वेवरण में लेनदारों के बट्टे खाते का कोई संकेत नहीं मिला। साथ ही बैंक विवरण विश्लेषण से इस वर्ष में केवल ल

ह 294 करोड़ का आगमन दिखा। • इसके अलावा, आरपी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए प्रदान किए गए जय पॉलीकैम के आयकर विवरण दस्तावेज दर्शाते हैं कि 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष पर रु. 679,23 करोड़ राशि की टेड प्राप्तियाँ संदिग्ध देनदारी के रूप वर्गीकृत की गईं।

• उपर्यक्त के आधार पर ऐसा लगता है कि प्राप्तियाँ संभवतः फर्जी प्रकार की रही होंगी। संभावी फर्जी प्राप्तियों व नटीक राशि विस्तृत अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण सुनिश्चित नहीं की जा सकी

पूंजी डब्ल्यूआईपीः

वित्तीय विवरणों की समीक्षा के आधार पर लगता है कि सीडब्ल्यूआईपी एनईएलपी VIII के तहत ऑयल ब्लॉक न्वेषण और निर्धारण के लिए वित्तीय वर्ष 2015—16 में बढकर लगभग रु. 400 करोड हो गया। आरपी द्वारा प्रदान की गई ''फैक्ट शीट ब्लॉक CB-ONN-2009/8" (हाइडोकार्बन महानिदेशालय से दस्तावेज) की

मीक्षा के आधार पर यह नोट किया गया कि जय पॉलीकैम ने उडीएपीआई गतिविधि के लिए लगभग रु. 3.26 करोड 136 वर्ग किमी x USD 5000 प्रति वर्ग किमी) और दो कुओं के अन्वेषण के लिए लगभग रु. 12.09 करोड़ (2 कुआ x USD 10,00,000 प्रति कुआ) लागत वहन की। उपर्युक्त गतिविधियों के लिए कुल व्यय लगभग रु. 15.35 करोड़ हुआ • उपर्यक्त के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार वहन सीडब्ल्युआईपी लागत और डीजीएच द्वारा जारी फैक्ट शीव

स्टॉक / क्रेडिटर विवरणः

प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण सहित जय पॉलीकैम द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्ती वर्ष 2013–14 के 24 मार्च से 26 मार्च के बीच बैंक को प्रस्तुत स्टॉक विवरण और क्रेडिटर विवरण की तुलना पर 5-दिनों की अवधि में माल-सची और क्रेडिटर के मान में 45% से अधिक का अंतर नोट हुआ, यह लेखा बहियों के संमार्व

हेर-फेर को इंगित करता है।

किम्बलिखित का संकेत करते हैं: • कुछ लेनदारों और क्रेडिटर का अस्तित्व उनके पंजीकृत पतों पर साइट विजिट से पुष्टि नहीं हुआ।

जय पॉलीकैम के लेनदारों और क्रेडिटर द्वारा दिए पतों पर एक से अधिक फर्मों का पंजीकरण। कुछ अवस की गई जहाँ लेनदार और क्रेडिटर का समान पंजीकृत पता है।

• कुछ क्रेडिटर के बीजकों पर लिखी वैट पंजीकरण संख्या रदद हुई पायी गई। साथ ही एक क्रेडिटर की वैट पंजीकर ख्या जब जांची गई तो यह किसी अन्य कंपनी की पायी गई।

लेनदारों और क्रेडिटरों में कॉमन/ओवरलैपिंग निदेशक और लेखापरीक्षक

 आरपी द्वारा प्रदान किए गए जय पॉलीकैम के आयकर निर्धारण आदेशों ने दर्शाया कि दो लेनदार कोलकाता आधारि पेपर कन्सर्न कंपनियाँ थी जय पॉलीकैम द्वारा खुले बाजार से अधिगृहीत की गईं।

• एक क्रेडिटर जय पॉलीकैम की संबंधी पार्टी का पता चला।

 कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेनदारों के अस्तित्व के संबंध में पब्लिक डोमन सर्च से कोई परिणाम नहीं मिला। अंतर्निहित एलसी दस्तावेज की समीक्षा निम्नलिखित संकेत करती है:

• कुछ क्रेडिटर (पार्टियाँ जिनको एलसी जारी किए गए थे) द्वारा जय पॉलीकैम को सामग्री की आपूर्ति के लिए प्रयुव ट्रांसपोर्टर इंडियन बैंकिंग एसोशिएसन (आईबीए) अनुमोदित ट्रांसपोर्टर सूची के अनुसार नहीं थे।

एलआर प्रति पर उल्लिखित पतों पर कुछ ट्रांसपोर्टर का अस्तित्व साइट विजिट से पुष्टि नहीं हो सका एलआर प्रतियों पर उल्लिखित वाहन संख्याओं का नमूना सत्यापन दर्शाता है कि लगभग 25 मीट्रिक टन सामग्री की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त वाहन दोपहिया / तिपहिया थे।

एलसी दस्तावेजों सहित क्रेडिटरों द्वारा प्रस्तुत बीजकों पर पर्याप्त विवरण जैसे कर पंजीकरण संख्याएँ नहीं थे। सा ही दस्तावेज जैसे प्री–शिपमेंट निरीक्षण रिपोर्ट, एलआर, मरीन बीमा पॉलिसी आदि एलसी खोलते समय प्रस्तत नहीं कि

एक टांसपोर्टर की एलआर प्रतियों पर उल्लिखित संपर्क नंबर जय पॉलीकैंम के ग्राहक से मिलते हए पाए गए।

• आयकर के निर्धारण आदेश संदर्भ सं. ACIT/CC-13/2013-14 और ACIT/CC-03/2015-16 में कुछ निश्चित प्रेक्षा पाए गए हैं। कॉरेन्सिक ऑडिटर ने निष्कर्ष निकाला है कि उपर्युक्त तथ्य, धोकाधड़ी के वर्गीकरण पर आरबीआई के मास्टर परिपट

और दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 66 के संदर्भ के साथ पठित, क्रेडिटरों के साथ धोकाधड़ी की इच्छा दर्शाते हैं और कारण बताओ नोटिस / समाचार पत्र प्रकाशन के प्रत्युत्तर में संभावी कपटपूर्ण की श्रेणी में रख ना सकता है। हमें आपसे कोई अभ्यावेदन या उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

ार दस्तावेजों के अवलोकन पर बैंक ने मेसर्स जय पॉलीकैम इंडिया लि. और इसके निदेशकों श्री संदीप सिंह मधोक श्री इंद्रपाल सिंह संधू, श्री हरप्रीत सिंह और श्री सतिन्दर पाल सिंह मधोक को कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आध ार निर्णय करके कि कंपनी ऋणदाता को भुगतान∕देयताओं के पुनर्भुगतान में पूरा करने में चूक की है और निधिय ो डायवर्ट / सिफन्ड ऑफ किया है ताकि जिस उद्देश्य के लिए वित्त लिया गया इआ और न ही अन्य परिसंपित्त के रूप में निधि फर्म / कंपनी के पास उपलब्ध है को जानबड़ाकर चककर्ता के रूप े प्रोषित करने का निर्णय किया है।

आरबीआई दिशा—निर्देशों के अनुसार और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन, यदि आपको इच्छित हो, आखिर क गपके खाते और आपको बैंक द्वारा जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत न किया जाए– पर हमारे अधिशार नेदेशक की अगुवाई वाली अधिशासी समिति के विचार हेतु इस पत्र की तिथि से 15–दिनों के अंदर अपना निवेदन / प्रस्तु। भेज सकते हैं।

कृपया नोट करें कि यदि आपको जानबुझकर चुककर्ता घोषित करने की बैंक की इच्छा के विरुद्ध इस पत्र की तिथि लेए कुछ नहीं है और बैंक आपके खाते को जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने के लिए आगे की कार्यवाही करेगा। बैंक को समाचार पत्र में जानबझकर चुककर्ता का नाम व फोटो प्रकाशित करने का अधिकार होगा और भारतीय रिजर्व बँक द्वारा जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक वसूली कार्रवाई शुरू करेगा।

ाह सूचना जानबुझकर चुककर्ता पर अधिशासियों की समिति (सीओई) के निर्देशों के अनुसार जारी की गई है। यह आपके सचनार्थ है। प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

Consolidated

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank હ

परिसंपत्ति वसूली शाखा, 4वां तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली—11000 फोन: 011-25789590, ई-मेल: d0707@psb.co.in

सार्वजनिक सूचना

1) खाते का नाम: मेसर्स स्टार बाजार प्रा. लि. अपने प्रवर्तक / निदेशकों श्री नवीन भल्होत्रा, सुश्री परिणीता मल्होत्रा, नीता प्रकाश के माध्यम से, पंजी. कार्यालय– बी–24, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली–110048 और यहाँ भी स्थित एचएस– 10, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली–110048

जमानती: 1. श्री नवीन मल्होत्रा. पत्र श्री रोशन लाल मल्होत्रा. बी-24. कैलाश कालोनी, नई दिल्ली—110048 **2.** सुश्री परिणीता मस्होत्रा, पत्नी श्री नवीन मस्होत्रा, पत्नी श्री नवीन मस्होत्रा, बी—24, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली—110048 **3.** श्रीमती नीता प्रकाश, पुत्री श्री रोशन

लाल मल्होत्रा, बी–24, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली–110048 2) खाते का नामः मेसर्स स्टार कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लि. अपने प्रवर्तकों / निदेशकों श्री नवीन

मल्होत्रा, सुश्री परिणीता मल्होत्रा के माध्यम से, पंजी. कार्यालय— बी—24, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली—110048 जमानतीः 1. श्री नवीन मल्होत्रा, पुत्र श्री रोशन लाल मल्होत्रा, बी-24, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-110048 2. सुश्री परिणीता मल्होत्रा, पत्नी श्री नवीन मल्होत्रा, बी—24, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली—110048 3, श्रीमती नीता प्रकाश, पुत्री श्री रोशन लाल मल्होत्रा, बी—24, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली—110048 4, श्री राहुल मल्होत्रा पुत्र श्री नवीन मल्होत्रा, बी-24, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-110048 **5.** मेसर्स स्टार

ग्रांड विला प्रा. लि. निदेशक श्री नवीन मल्होत्रा, पंजी. कार्यालय– ई–8, कैलाश कालोनी नई दिल्ली-110048 3) खाते का नामः मेसर्स स्टार हेरीटेज प्रा. लि. अपने प्रवर्तकों / निदेशकों श्री नवीन

मत्होत्रा, सुश्री परिणीता मत्होत्रा के माध्यम से, पंजी. कार्यालय—सी–5/30, एसडीए, मेन आईआईटी गेट के सामने, नई दिल्ली–110016 जमानतीः 1. श्री नवीन मल्होत्रा, पुत्र श्री रोशन लाल मल्होत्रा, बी-24, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली–110048 2 सुश्री परिणीता मल्होत्रा, पत्नी श्री नवीन मल्होत्रा,

बी-24 कैलाश कालोनी नई दिल्ली-110048

	11 24, 44111 1, 12 14411 110040		HOOM		
क्र. सं.	खाते का नाम	एनपीए की तारीख	जानबूझकर चूककर्ता की तारीख	सुविघाओं का प्रकार और राशि	बकाया राशि दिनांक 31.12.2020 को
1.	मेसर्स स्टार बाजार प्रा. लि.	31.03.2012	02.12.2020	मियादी ऋणः रु. 04,98,00,000 / — नकद क्रेडिटः रु. 25,40,00,000 / — बँक गारंटीः रु. 10,00,000 / —	रु. 85,81,08,808.40 + 01.01.2021 से प्रभावी ब्याज
2.	मेसर्स स्टार कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लि.	31.03.2012	02.12.2020	ओडीपी वर्किंग पूंजीः रु. 6,00,00,000/—	रु. 26,72,32,759.00 + 01.01.2021 से प्रभावी ब्याज
3.	मेसर्स स्टार हेरीटेज प्रा. लि.	30.06.2012	02.12.2020	सीए ओवरड्रॉफ्टः रु. 1,00,00,000 / —	रु. 5,28,88,335.05 + 01.01.2021 से प्रमावी ब्याज

Image not

available

सर्व साधारण को एतटदारा अधिसचित किया जाता है कि उपरोक्त कर्जदार कंपनियों ने पंजाब एंड सिंध बैंक से ऋण प्राप्त किए हैं। बैंक के बकाया देयों के पुनर्भुगतान में चूक के कारण उपरोक्त खाते अनर्जक आस्ति (एनपीए) घोषित कि गए हैं और बैंक ने उनको जानबूझकर चूककर्ता घोषित कर दिया है। उपरोक्त कंपनियों के निदेशक /भागीदार / प्रवर्तक / जमानती बैंक के बकाया देय और इस पर आगे की ब्याज व अ

लागत/धनराशियों का भुगतान करने के लिए देनदार हैं जिसके लिए बैंक ने उनके विरुद्ध पहले ही वसूली कार्यवार्ह सर्व साधारण से अनुरोध है कि उपरोक्त सुचना नोट करे लें और इन व्यक्तियों की परिसंपत्तियों से कोई लेन-देन न क और इन व्यक्तियों की परिसंपत्तियों / उनके द्वारा किए गए लेन-देनों का विवरण बैंक को सचित भी करें ताकि सार्वज

क धनराशि की वसुली की जा सके। दिनांकः 30.01.2021, स्थानः नई दिल्ली पंजाब एण्ड सिंध बैंक



श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 123, अंगप्पा नैकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001 शाखा कार्यालय : साई टॉवर, तीसरी मंजिल, निकट शालेवाला, आईसीआईसीआई बैंक रोड, जलजोग सर्किल, जोधपुर-342001, राजस्थान, वेबसाइट : http://www.shriramcitv.in भौतिक कब्जा सूचना

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में श्रीराम सिटी यूनियम फाइनेंस लिमिटेड (एससीयएफ) का अधिकत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों को कथित मांग सचनाओं मे उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सुचनाएं निर्गत की थीं जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में है। राशि के पुनर्भुगतान में कर्जदार के असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 27 जनवरी. 2021 को भौतिक कब्ज

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वार्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा

कर्जदार का नाम एवं पता	मांग सूचना	सम्पत्ति का विवरण
ऋण खाता सं. JODP2TF	15 मार्च, 2019	भूमि/फ्लैट/प्लॉट सं. जी-1-35,
1506290001	तक रु.	इंडस्ट्रियल पार्क, बोरानादा,
1. मैसर्स ए.जे. प्रोडक्ट	1,32,12,758/-	जोधपुर–342001 राजस्थान का
पता : जी-1-105, एग्रो फूड	(रुपये एक करोड़	सम्पूर्ण भाग, माप 1000 वर्ग
पार्क, बोरानादा इंडस्ट्रियल	बत्तीस लाख बारह	मीटर, जोधपुर में स्थित।
एरिया, जोधपुर-342001	हजार सात सौ	सीमाएं :
2. श्री जगदीश रामनारायण मीणा	अट्ठावन मात्र)	उत्तर : सड़क
3. श्रीमती आशा जगदीश मीणा	तथा नियम एवं	दक्षिण : प्लॉट सं. जी-26
दोनों निवासी : प्लॉट सं. 116,	शर्तों के अनुसार	एवं जी-27
रजत रेजीडेंसी, गंगाना रोड,	भावी ब्याज तथा	पूर्व : प्लॉट सं. जी-36
धंदानिया भायलन, जोधपुर	प्रभार	पश्चिम : प्लॉट सं. जी-34
(राज.) 342001		
4. जे.के. इंडस्ट्रीज		
पताः जी-1-35, बोरानादा		
इंडिस्ट्रियल एरिया, छाली,		
जोधपुर-342001		
गरिशनि अगिनमों को कराने के निग	ज्यान्त्रका समाग्र सीमा	के गमिनेश्य में कर्जनमें का श्यान

प्रतिभति आस्तियों को छडाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों का ध्या अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकष्ट किया जाता है। ह./-अधिकत प्राधिकार

स्थान : जोधपर तिथि : 01/02/2021 श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड

(T) IDBI BANK

श्री बलदीप अरोरा

(''ऋणी'') और

श्रीमती जया अरोरा

(''सह—ऋणी'')

28.02.2019

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, रिटेल रिकवरी, ई-1, प्रथम तल, वीडियोकॉन टॉवर इंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली– फोन नं.: 011-66083065,66083075/4896

CIN: L65190MH2004GOI148838 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(2) के सपिठत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए नोटिस जारी किया गया है। बैंक न निम्नलिखित उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर को उनके नाम के सामने लिखित दिनांक को इस नोटिस की पापित की तारिख से सात दिनों के भीतर राशि चकाने का एक मांग नोटिस जारी किया था। जबकी वे उक्त राशि की अदायगी में असफल रहे है। उधारकर्ता द्वार उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर्र और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, की धारा 13(4), के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा उधारकर्ता के नाम के सामने लिखित दिनांक को ले लिया है ।

उधारकर्ता एवं जन साधारण को इस नोटि के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि व निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन–देन न के तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन–देन **आईडीबीआई बैंक लि**. की बकाया राशि उधारकर्ता के नाम के सामने लिखित राशि इसके आगे के ब्याज व अन्य खर्चे के अधीन होगा।

गिरवी समप्ति का विवरण मांग सूचना की तिथि गारंटर त समानि सचना धारा 13(2) तिथि का स्वामी फ्लैट नंबर 504, टॉवर नं—डी 3, 5 रू.14,71,837 ∕ (''ऋणी'') – वीं मंजिल, सुपरटेक ईको विल –1, चौदह लाख इकहत्तर (भौतिक) 1340 वर्ग फुंट प्लॉट नंबर जीएच हजार आठ सौ सैंतिस श्रीमती स्वेता केसरवानी -08 सेक्टर -1. ग्रेटर नोएडा. उत्तर मात्र) दिनांक 03.01.2020 (''सह–ऋणी'') पर्देश—२०१३०३ 29.01.2021 फ्लैट नंबर जी -3, भूतल, टॉवर ई, रु.36,21,814/-(रुपये 08.06.2020 श्री अमीर बिन उमर शमंकर मनोरथ, प्लॉट नंबर जीएच छत्तीस लाख इक्कीस (''ऋणी'') (सांकेतिक) –4 बी / 1, सेक्टर 16, गौतम बुद्ध हजार आठ सौ चौदह मात्र) नगर, ग्रेटर नोएडा (पश्चिम), उत्तर दिनांक 10.02.2020 को 08.06.2020 29.01.2021 फ्लैट नंबर 1903, 19 वीं मंजिल, रु.21,77,469/-(रुपए श्री संजय गोयल टॉवर एफ, शुभंकर मनोरथ, प्लॉट इक्कीस लाख सत्ततर हजार (''ऋणी'') (सांकेतिक) नंबर जीएच –4 बी / 1, सेक्टर 16, चार सौ उनसठ मात्र) गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर दिनांक 10.02.2020 को प्रदेश— 201307 29.01.2021 यूनिट नंबर 2003, 20 वीं मंजिल, रु.32,45,894 / - (रुपए श्री मुमताज अंसारी 29.02.2020 ट्रान्स टॉवर, रिदम काउंटी, जीएच बत्तीस लाख पैंतालिस (सांकेतिक) .. 16 ई, ग्रेटर नोएडा पश्चिम, ग्रेटर हजार आठ सौ चौरानवे नोएडा, उत्तर प्रदेश— 201306 मात्र) दिनांक 10.12.2019

-दिनांकः 30.01.2021 प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लि. स्थानः नई दिल्ली

प्रदेश।

ACME RESOURCES LTD. **Regd. Office** : 984, 9th Floor Aggarwal Cyber Plaza-Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034 Notice is hereby given that pursuant to regulation 29 of SEBI (Listing obligation 8 Sisclosure requirements) regulations 2015, he meeting of the Board of Directors of the Company M/s Acme Resources Limited will be held on Thursday, the 11thday of February 2021 at 3:00PM, at Registerec office of the Company at 984, 9th Floor Aggarwal Cyber Plaza – II, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi- 110034 to nter-alia, consider and take on record the Consolidated and Standalone Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 31st December 2020

By order of the Board for **Acme Resources Limited**sd/- **Managing Director** 30.01.2021

र्वसाधारण को सचित किया जाता है कि श्री रिषि पाल शम

पुत्र श्री ब्रह्मानंद शर्मा डीआईएन 05310029 जो कंपन बरासोल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जिसकी CIN U51505DL2012PTC246419 पंजीकत कार्यालय 321,वाधवा काम्प्लेक्स, D-288-89/10, लक्ष्मी नग दिल्ली-110092 ईस्ट दिल्ली इंडिया है से डायरेक्ट के पद पर थे, को कंपनी ने दिनांक 09 जनवरी 2021 निदेशक के पद से हटा दिया है और अब वह कंपनी वे निदेशक नहीं हैं और नाहीं किसी कार्य के लिए अधिकत है उनके निष्कासन को सम्बंधित कंपनी रजिस्टार ने दिनांव 29 जनवरी 2021 को इसआरएन R83714485 के तह दायर सम्बंधित इ- फॉर्म डिआईआर -12 को मंजरी दे दिय है। अतः सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि अब उनके पास कंपनी के किसी भी व्यवसाय को करने तथ कंपनी से सम्बंधित किसी लेन-देन को करने का कोई अधिकार नहीं है।

अत: सभी सर्व साधारण यह ध्यान दें कि यदि कोई उनदे साथ या उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई लेन देन या कोई अन्य व्यावसायिक कार्य करते हैं तो ऐसा व अपने जोखिम पर करेंगे एवं ऐसे किसी लेन-देन अथवा कार्य n द्वारा हुई हानि के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।

> जनहित में जारी लाइब्रसोल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के लिए संजय नाग (निदेशक DIN-02621382

29.01.2021 फ्लैट नंबर डी-1802, 18 वीं मंजिल, रु.34,74,250 / - (रुपए

जेकेजी पाम कोर्ट, प्लॉट चौंतिस लाख चौहत्तर

नंबर—जीएच / 1 डी, सेक्टर 16 हजार दो सौ पचास मात्र)

सी, ग्रेटर नोएडा—201009, उत्तर दिनांक 10.09.2018 को

GODAWARI POWER & ISPAT LIMITED

Regd. Office: 428/2, Phase-I, Industrial Area, Siltara, Raipur (C.G.) Corporate Office: Hira Arcade, Pandri, Raipur (C.G.) 492001 CIN.: L27106CT1999PLC013756, Tel: 0771-4082000, Website: www.godawaripowerispat.com, E-mail: yarra.rao@hiragroup.com

PERFORMANCE HIGHLIGHTS (CONSOLIDATED)

EBITA Turnovei **35%** 63%

PAT 448%



EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020

		CONSOLIDATED						
S.	Particulars	3 N	3 MONTHS ENDED 9 MONTHS ENDED					
No.		Unaudited					Audited	
		31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020	
1	Total income from Operations	1132.49	967.49	841.51	2812.29	2505.44	3293.18	
2	Earnings Before Interest, Depreciation Tax							
	(EBITDA)	347.86	235.21	132.29	741.89	475.64	628.90	
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or							
	Extraordinary items)	275.55	155.57	47.19	507.72	211.70	280.07	
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or							
	Extraordinary items)	275.55	155.57	47.19	507.72	211.70	269.79	
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or							
	Extraordinary items)	166.36	103.76	30.34	320.48	140.21	174.43	
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for							
	the period (after tax) and Other Comprehensive	180.20	112.95	33.66	348.83	140.02	166.11	
	Income (after tax)]							
7	Paid Up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	34.11	34.11	34.11	34.11	34.11	34.11	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued							
	operations)(beforeand after extraordinary items) -							
	(a) Basic	45.64	29.55	8.41	88.39	37.86	47.33	
	(b) Diluted	45.64	29.55	8.41	88.39	37.86	47.33	

The additional Information on Standalone Financial Results is as below

S.	Particulars	3 MONTHS ENDED 9 MONTHS ENDED				ENDED	YEAR ENDED
No.	1 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41		Unaudited				
110.		31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
1	Total Income From Operations	954.47	876.96	719.73	2406.29	2129.89	2776.90
2	Earnings Before Interest, Depreciation Tax (EBITDA)	280.03	200.42	96.98	577.68	337.30	442.90
3	Profit/(Loss) before tax	292.56	144.28	35.65	476.00	149.66	197.64
4	Profit/(Loss) after tax	203.03	94.17	21.09	321.82	94.45	121.40
No	otes: 1.The Financial Results of the company for the quarter and	nine month	s ended 31st	December,	2020 have be	en reviewed	d by the Audit

committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 30th January, 2021 and the Limited Review of the Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings field on south same and the Limited Review of the same has been carried out by the Auditors.

2. The above is an extract of the detailed format of financial results filed for the quarter & nine months ended 31st December, 2020 filed with stock exchanges under regulation 33 & other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the financial results are available on the stock exchange websites (www.bseindia.com and

www.nseindia.com) and on the Company's website (www.godawaripowerispat.com)

For and on behalf of Board of Directors

Abhishek Agrawal Executive Director

AMBER ENTERPRISES INDIA LIMITED

Date: 30.01.2021

Registered Office: C -1, Phase – II, Focal Point, Rajpura Town – 140 401, Punjab Corporate Office: Universal Trade Tower, 1st Floor, Sector - 49, Sohna Road, Gurugram - 122 018, Haryana E-mail: info@ambergroupindia.com; Website: www.ambergroupindia.com Tel: +91 124 3923000: Fax: +91 124 3923016/17: CIN: L28910PB1990PLC010265

Extract of Unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended 31 December 2020

		001130	Jiluateu			1 1				Stanu	alone		
Т	hree months er	nded		ate figures for onths ended	Year ended	1 1		1	Three months er	nded		e figures for ths ended	Year ended
31 December	30 September	31 December	31 December	31 December	31 March	SI. No.	Particulars	31 December	30 September	31 December	31 December	31 December	31 March
2020	2020	2019	2020	2019	2020			2020	2020	2019	2020	2019	2020
(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
76,470.95	40,792.97	78,843.40	1,43,209.06	2,64,761.03	3,96,279.33	1.	Total Income from Operations	57,642.04	22,235.89	56,758.56	98,961.19	1,95,665.12	3,00,273.51
3,987.11	(59.83)	2,448.15	368.56	12,065.71	19,074.33	2.	Net (Loss) / Profit for the period (before tax, exceptional and extraordinary items)	2,710.04	-1,534.42	618.16	-1,679.44	7,691.99	12,890.89
3,987.11	(59.83)	2,448.15	368.56	12,065.71	19,074.33	3.	Net (Loss) / Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,710.04	-1,534.42	618.16	-1,679.44	7,691.99	12,890.89
2,787.75	284.13	2,481.05	680.31	10,132.10	16,414.49	4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,826.73	-860.16	1,153.88	-908.35	6,470.53	11,794.00
2,792.27	316.69	2,462.17	693.86	10,077.59	16,323.78	5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,827.76	-849.65	1,144.53	-905.26	6,442.50	11,764.62
3,369.37	3,369.37	3,144.65	3,369.37	3,144.65	3,144.65	6.	Equity Share Capital (Face Value Rs.10 Each)	3,369.37	3,369.37	3,144.65	3,369.37	3,144.65	3,144.65
	-	-	-	-	1,09,695.75	7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	1,04,930.53
						8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) –					·	
7.99	0.52	7.18	1.90	30.39	50.37		Basic earnings per share (in rupees)	5.42	-2.69	3.67	-2.81	20.58	37.50
7.99	0.52	7.18	1.90	30.39	50.37		Diluted earnings per share (in rupees)	5.42	-2.69	3.67	-2.81	20.58	37.50

- Notes to above extract: The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2020 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Regulrements) Regulations, 2015 (as amended time to time). The full format of the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2020 is available on the Company's website (www.ambergroupindia.com) and on the website of the stock exchanges where the Company's equity shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com)
- Figures of the previous periods have been regrouped/rearranged/reclassified, wherever necessary to comply with financial reporting requirements

For Amber Enterprises India Limited Jasbir Singl (Chairman & CEO)

(Rs. in lakh except for per share data)

Standalone

स्थान : भिवाडी

Place: New Delhi

आशियाना इस्पात लिमिटेड

सीआईएनः L27107R. पंजी. कार्याः ए-1116. फेस-।।। रीको इंडस्टियल एरिया जिला अलवर (राजस्थान) भिवाड़ी-301019 ई-मेल : ashianagroup@yahoo.co.in, वेबसाइटः www.ashi

सूचना

एतद्द्वारा सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 47 वे साथ पठित नियम 29 के प्रावधानों के अनुसार सूचित किया जाता है कि अन्य विषयों के साथ 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन और रिकॉर्ड में लेने हेतु निदेशक मंडल की समा कंपनी के कारपोरेट कार्यालय में शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को आयोजित की जायेगी।

सूचना कंपनी की वेबसाइट www.ashianaispat.in और बीएसई जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

हिते आशियाना इस्पात लिमिटेड

(नरेश चंद जैन) दिनांकः 30.01.2021 डीआईएन- 0000450

F COSMO FILMS

COSMO FILMS LIMITED Read, Off: 1008, DLF Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi- 110025

CIN: L92114DL1976PLC008355, Tel: 011-49494949, Fax: 011-49494950 E-mail: investor.relations@cosmofilms.com. Website: www.cosmofilms.com NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following original Share Certificates of Cosmo Films Ltd issued by the company are stated to have been lost or misplaced or stolen and the registered holder thereof/ claimant has applied to company for issue of Duplicate Share Certificate.

r. o.	Name & Folio No.	Name of Claimant	Certificate No.	Distinctive Nos.	No. of Eq. Shares
	Jawaharlal Govindji Desai, Parmilaben Jawaharlal Desai J00115 (Gujarat Propack Ltd)	Jawaharlal Govindji Desai	6620	1452401 -1452500	100
	Avinash Moreshwar Savtale A5455	Archana Savtale	100493 - 100494 202602	7504714-7504768 10367628 -10367792	220

Any person(s) who has/ have any claim(s) in respect of such share certificates should lodge such claim(s) in writing with the registrar and share transfer agent M/s. Alankit Assignments Ltd., 4E/2, Alankit House, Jhandewalan Extr., New Delhi 110055, Tel: 011-42541234, within 15 days of Publication of this notice after which no claims will be intertained and the registrars will proceed for issuing duplicate certificates.

For and on Behalf of COSMO FILMS LTD.

बोर्ड के आदेशान

Dated: 30th January, 2021 Jvoti Dixit Company Secretary

Place: Gurugram Date: 30 January 2021

WHAT'S NEW

RBI proposes 4-layer NBFC regulatory structure



The Reserve Bank of India has proposed a plan for a four-layered regulatory and supervisory framework for non-banking finance companies with progressive increase in intensity of regulation. A discussion paper released by the RBI has proposed that NBFCs be split into four

layers - base, middle, upper and top. The classification of the NBFCs, it said, will be based on host of parameters including size, leverage, interconnectedness, substitutability, complexity and nature of activity, among others. An NBFC in the Upper Layer will be known as NBFC-Upper Layer (NBFC-UL) and will invite a new regulatory superstructure. It also proposes to raise the threshold for systemic important to ₹1.000 crore from the current ₹500 crore.

Survey: Governance, key to end zombie lending

The Economic Survey 2020-21 has raised the issue of zombie lending. It has noted that apart from from re-capitalising banks, it is important to enhance the quality of their governance. "Ever-greening of loans by banks as well as zombie lending is symptomatic of poor governance,



suggesting that bank boards are 'asleep at the wheel' and auditors are not performing their required role as the first line of defence," it said, adding that to avoid ever-greening and zombie lending following the current round of forbearance banks should have fully empowered, capable boards.

Concerns ahead despite good Q3 results



Third quarter results of banks have indicated banks show a rise in net profit but concerns are evident ahead. Bank of Baroda reported a standalone net profit of ₹1,061 crore in the third quarter against a net loss of ₹1,407 crore in the year-ago quarter. Private sector lender ICICI Bank reported a 19.1 per cent increase in its standalone net profit in the third quarter of

the fiscal at ₹4,939.59 crore. The bank had a net profit of ₹4,146.46 crore in the same period last fiscal. However, Axis Bank reported a 36.4 per cent drop in its net profit in the third quarter this fiscal despite a robust rise in net interest income as provisions rose sharply. For the quarter ended December 31, 2020, Axis Bank's standalone net profit stood at ₹1,116.60 crore as against ₹1,757 crore in the same period a year ago.

RBI strengthens grievance redress framework

Enhanced disclosures on customer complaints and operationalisation of a cost-recovery framework have been prescribed by the RBI to strengthen and improve the efficacy of the grievance redress mechanism of banks. Further, the central bank will undertake intensive review of the grievance redress



mechanism of banks having persisting issues. Based on the review, a remedial action plan will be formulated and formally communicated to the banks for implementation, RBI said it will operationalise the cost-recovery framework for banks, whereby the cost of redress of maintainable complaints will be recovered from the banks against whom the number of complaints received in OBOs are in excess of their peer group averages.


DATA BANK

Banking on better times?


The banking sector has taken a big beating over the last five years. The pandemic-led disruption over the past year has only made matters worse. The government has an uphill task of reviving lending activity. All eyes are on the Budget to see whether the Centre is able to kick-start investments. given its fiscal constraints. With the progress under IBC remaining dismal, guarantining stressed accounts into a 'bad bank' is again finding favour in many quarters. Expectations also run high on the setting up of a 'Banking Investment Company' to address the recapitalisation issue and kicking off governance reforms at PSBs. A peek into the state of the banking sector

Credit growth has plunged over the past five years

Non-food credit growth - Credit to industry




Asset quality appears to have improved in FY21, mainly due to moratorium/asset classification standstill




Massive capital infusion into PSBs has gone to absorb losses than fund growth

Government stake in many PSBs is over 89 per cent impeding



IBC progress has been dismal

of resolution plan



Is there a case for a bad bank?

While some analysts believe that it could boost incremental lending, the issue of banks having to sell and take a haircut remains

he economic uncertainties from the Covid -19 pandemic has once again reopened the debate on the need for setting up a bad bank to take care of the fresh wave of bad loans and also free up resources for lending.

While the Finance Ministry is understood to be examining such a proposal, Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das also recently said the central bank is open to look at such a plan.

Significantly, the Economic Survey 2020-21 has been silent on the issue of a bad bank but has pointed out the need for an asset quality review after the current forbearance ends and a re-capitalisation of banks to spur lending.

All eyes are now on whether Finance Minister Nirmala Sitharaman will announce such a plan in the Union Budget 2021-22 or will look at other ways to resolve the challenges in the banking sector.

The RBI in its latest Financial Stability Report has estimated that the gross NPAs of banks may increase from 8.5 per cent in March 2020 to 12.5 per cent by March 2021 under the baseline scenario and the ratio may escalate to 14.7 per cent under a very severely stressed scenario.


This is already becoming evident in the third quarter results of banks that reflect increased stress and lenders are gearing up to meet a fresh wave of NPAs.

HDFC Bank had said if it had classified accounts as NPA after August 31, 2020, the proforma gross NPA ratio would have been 1.38 per cent as on December 31, 2020 as against reported 0.81 per

For Yes Bank, the proforma gross NPA would be nearly at 20 per cent as against the reported 15.36 per cent for the third quarter this fiscal.

In their pre-Budget interactions, setting up of a bad bank has been a key wish list for many stakeholders and experts. Industry chamber CII had urged the Finance Minister to consider such

a pro-



Explaining the rationale. veteran banker and CII President Uday Kotak had said, "In the aftermath of Covid-19 it is important to find a resolution mechanism through a market determined price discovery. With huge liquidity both globally and domestically multiple bad banks, can address this issue in a transparent manner and get the credit cycle back in action."

Prashant Kumar, Managing Director and CEO, Yes Bank, also said it would be good for the economy. "We are the first ones to support the idea of a bad bank and we are working on our own ARC. I think a bad bank coming in any form would be really good for the economy," he had recently told BusinessLine.

Analysts point out that a bad bank would lower the recapitalisation need for public sector banks in

> mental lending by banks. Banks could become more cautious on lending if bad

the new fiscal year

and boost incre-

loans rise. The Survey highlighted that credit growth slowed down to 6.7 per cent PERFORMANCE OF BANKS

		PUBLIC SECTOR BANKS				PRIVATE SECTOR BANKS				
Reporting date	Gross NPAs (₹ crore)	CRAR %	Return on equity %	Return on total assets %	Gross NPAs (₹ crore)	CRAR %	Return on equity %	Return on total assets %		
March'17	6,84,732	12.14	-1.92	-0.12	91,915	15.53	11.79	1.27		
March'18	8,95,601	11.66	-14.01	-0.87	1,25,863	16.43	9.98	1.09		
March'19	7,39,541	12.2	-10.97	-0.66	1,80,872	16.07	5.49	0.6		
March'20	6,78,317	12.85	-3.92	-0.25	2,05,848	16.55	3.2	0.35		
Sept'20	6,09,129	13.51	4.33	0.26	1,88,191	18.21	10.04	1.1		
Source: Economi	c Survey, Offsite	e Returns, Glo	bal Operations,	RBI						

2021 from 14.8 per cent in February 2019.

Not a new idea

The idea of a bad bank is not a new proposal but has been revisited a couple of times in the last few years.

As the name suggests, a bad bank will buy the bad loans of financial sector entities so that they can clean up their balance sheets and move ahead with lending.

One such entity was set up in 1988 for US based Mellon Bank and other such agencies have been set up in countries including Ireland.

The proposal of setting up a bad bank in India had previously come up in the Economic Survey 2016-17, which had suggested setting up of a centralised Public Sector Asset Rehabilitation Agency (PARA) to take charge of the largest, most difficult cases,

and make politically tough decisions to reduce debt.

In June 2018, then Finance Minister Piyush Goyal had set up a committee to examine whether transferring NPAs of PSBs to an ARC or a bad bank

Many not in favour

was a suitable proposal.

But, there have also been many arguments against a bad bank, with reservations within the government and RBI at various points of time.

Funding could be an issue in a year when the government is hard pressed for resources. In its proposal submitted in May last year, Indian Banks' Association had suggested an initial outlay of ₹10,000 crore.

But the main issue is that banks would have to sell the bad loans and take a haircut, which would impact its P&L. Until this issue is addressed,

creating a new structure may not be as potent in addressing the problem.

A recent note by Kotak Institutional Equities had also said bad bank is perhaps well served in the initial leg of the recognition cycle.

"Today, the banking system is relatively more solid with slippages declining in the corporate segment for the past two years and high NPL coverage ratios, which enable faster resolution," it said, adding that setting up such an agency today would aggregate but not serve the purpose observed in other markets.

As of now, the problem of NPAs are held at bay as the Supreme Court verdict is pending. Setting out a strategy to tackle the looming issue is critical - if not a bad bank, then via other op-

Survey outlines a roadmap for Atmanirbhar Bharat

Sends a strong message and a signal that the Budget is likely to be a growth oriented one



SAUGATA BHATTACHARYA

The Economic Survey has become an analytically rich document, offering data driven insights into India's economic, social and behavioral trends. Yet, in the context preceding a "never seen before, one in a 100 year" Budget, the 2021 Economic Survey assumes an inordinate significance. In an environment where India has already become a major vaccine provider for the world, the broad theme of "Atmanirbhar Bharat" anchoring the Survey

chapters, strikes a resonant note. The analytical chapters present an interleaved mesh of topics which support this broad theme.

To begin with is the Survey's assessment of the ongoing recovery and outlook for FY22 and beyond. FY21's real GDP growth is retained at the official estimate of 7.7 per cent contraction, and the FY22 rebound is forecast at 11 per cent yoy, and nominal growth at 15.4 per cent. This is important, since this provides a signal of the real growth rate for the Union Budget. This is in line with the recent IMF update predicting a 11.4 per cent growth for India. However, we think that growth is likely to be higher, which will in turn provide some buffers for the fiscal numbers presented in the Budget Estimate. The survey also notes that the forecasts are conservative, with upside prospects.

Able macro-economic policies have helped economic activity rebound to pre-pandemic levels. Recovery is expected to be broad based in H2 FY21. Government consumption is expected to be the biggest growth driver. Private consumption and investment are also expected to revive strongly.

A look back into the pandemic policy response provides insights into the focus which will be required to plug weaknesses, processes to redistribute incomes, provide social safety nets, policy response coordination, etc. A graded multi-pronged response included containment measures, calib-



rated fiscal support focused on essentials during the lockdown phase and a demand push during the reopening, financial measures and structural reforms. In terms of the fiscal space available for continuing stimulus in the FY22 Union Budget, the Survey states that while re-distribution is important, the required scale becomes feasible for a developing economy only when the economic pie is growing. This is a strong message and a signal that the Budget is likely to be a growth oriented one. Increasing capex is a key concern. Given the current size of India's foreign exchange reserves, there is now a debate whether some part of

structure, or take on some credit risk. The current practice is to deploy these reserves in government bonds and deposits of global central banks. Although there is no risk of default, yields on these investments are very low, given the zero or negative policy rates. Deploying some of these reserves in high rated corporate bonds would push up interest earnings, and still remain within the envelope of credit safety. The Survey feels that the current levels can absorb an additional 2.8 standard deviation negative event. In addition, the Survey questions the validity of India's BBB-sovereign credit rating, and makes a case for upgrades. The broader issues relate to taking

India back up to a sustained high growth trajectory. Now that demand and consumption are improving, investment and capital spending will again return to centre stage. The first is strengthening the financial sector..

The pandemic has sharply accelerated already evolving global trends: technology adoption, digitalisation and automation, formalisation of economic activity in emerging markets,

and market power across sectors, and as a consequence, rising inequality. The Survey notes that the number of students in government and private schools owning a smartphone increased from 36.5 per cent in 2018 to 61.8 per cent in 2020 in rural India!

One specific concern regarding rising inequality is the problem of employment opportunities and job creation. Boosting manufacturing will result in backward linkages to MSMEs, generating significant employment opportunities. Sector specific measures, particularly allied farming activities like fisheries, will also add to employment generation.

Recognising the "hysteresis" effect of the pandemic, significant structural reforms have been initiated. These augment the expansion of public investment, in order to crowd private capex back in, with additional deregulation and liberalisation of sectors to unleash entrepreneurial energy and risk appetite of private investors.

The writer is Executive Vice President and Chief Economist, Axis Bank. Views are

BANK OF ENGLAND

Any 'yes' on negative rates likely to be cautious

London, January 31

Heavy caveats and caution are likely to couch any Bank of England (BoE) announcement next week that negative interest rates are technically possible in Britain, judging from feedback from major banks.

Alongside its decisions on rates and its bond-buying programme, the BoE is due to publish on February 4 the findings of a consultation with banks on what negative rates would mean for their operations. The BoE has run short of firepower after cutting its Bank Rate to 0.1 per cent and

stockpile to nearly £900 billion to combat the economic hit of Covid-19. So it is looking

doubling its bond

at the option of following the European Central Bank and the

95.8

Bank of Japan by using sub-zero rates. Policymakers are divided about whether the hit to profits at Britain's banking sector would make negative rates counter productive for the economy, and bankers say updating their systems to cope with a BoE minus figure would be a challenge. "If negative rates happened tomorrow you would see something clunky but effective from banks, but it wouldn't be great," a senior banker said."The industry view is it would take up to a year to be

ready operationally," another

banker said. "It's incredibly complicated to do and nobody has really planned or budgeted for it." "Negative rates would absolutely hit our business models. There's no way we could outrun negative rates," the first banker said. "The question is: would it finally mean charging for current accounts? It would open the door for it. If someone does it, everyone else will move very quickly."

Recovery prospects Most economists polled by Reu-

ters think the BoE is unlikely to cut rates be-

low zero this year, largely because the fast rollout of Britain's vaccination programme has raised the prospect of

an economic recovery. Divisions over negative rates among the nine members of the Monetary Policy Committee has also made investors scale back their bets on a cut below zero. The MPC's five internal members, headed by Governor Andrew Bailey, have stressed risks and uncertainties.Investors are also waiting to see if the BoE speeds up the pace of its bond-buying programme as a response to the third national coronavirus lockdown, which is likely to lead to a cutt o the BoE's forecasts for the pace of the recovery this year.

this might be leveraged to fund infraconsolidation and increasing scale **GODAWARI POWER & ISPAT LIMITED** Regd. Office: 428/2, Phase-I, Industrial Area, Siltara, Raipur (C.G.) Corporate Office: Hira Arcade, Pandri, Raipur (C.G.) 492001 CIN.: L27106CT1999PLC013756, Tel: 0771-4082000, Website: www.godawaripowerispat.com, E-mail: yarra.rao@hiragroup.com PERFORMANCE HIGHLIGHTS (CONSOLIDATED) Interim **EBITA** Turnover Dividend 35% 50% EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020

		CONSOLIDATED							
S.	Particulars	3 M	YEAR ENDED						
No.		Unaudited							
		31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020		
1	Total income from Operations	1132.49	967.49	841.51	2812.29	2505.44	3293.18		
2	Earnings Before Interest, Depreciation Tax (EBITDA)	347.86	235.21	132.29	741.89	475.64	628.90		
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	275.55	155.57	47.19	507.72	211.70	280.07		
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	275.55	155.57	47.19	507.72	211.70	269.79		
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	166.36	103.76	30.34	320.48	140.21	174.43		
6	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	180.20	112.95	33.66	348.83	140.02	166.11		
7	Paid Up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	34.11	34.11	34.11	34.11	34.11	34.11		
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)(beforeand after extraordinary items) - (a) Basic (b) Diluted	45.64 45.64	29.55 29.55	8.41 8.41	88.39 88.39	37.86 37.86	47.33 47.33		
Th	e additional Information on Standalone Financial Results is as	below:							
0	Particulare	3 M	ONTHS ENDE	D	9 MONTHS	ENDED	YEAR ENDED		

S.	Particulars	3 N	3 MONTHS ENDED 9 MONTHS ENDED					
No.	raticulais		Unaudited					
1001	and the same of th	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020	
1	Total Income From Operations	954.47	876.96	719.73	2406.29	2129.89	2776.90	
2	Earnings Before Interest, Depreciation Tax (EBITDA)	280.03	200.42	96.98	577.68	337.30	442.90	
3	Profit/(Loss) before tax	292.56	144.28	35.65	476.00	149.66	197.64	
4	Profit/(Loss) after tax	203.03	94.17	21.09	321.82	94.45	121.40	
No	otes: 1.The Financial Results of the company for the quart	er and nine months	ended 31st	December.	2020 have be	en reviewe	d by the Audit	

Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 30th January, 2021 and the Limited Review of the same has been carried out by the Auditors.

2. The above is an extract of the detailed format of financial results filed for the quarter & nine months ended 31st December, 2020 filed with stock exchanges under regulation 33 & other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the financial results are available on the stock exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.godawaripowerispat.com)

For and on behalf of Board of Directors

Date: 30.01.2021

 $\textbf{THE ECONOMIC TIMES} \mid \textbf{MUMBAI} \mid \textbf{MONDAY} \mid \textbf{1 FEBRUARY 2021} \mid \textbf{WWW.ECONOMICTIMES.COM}$

INDICATION OF RAPID ECONOMIC RECOVERY

Highest-ever GST Collection at ₹1.2 Lakh Crore in January

Upward March Dec 2020 Nov 2020 Oct 2020 Sept 2020 Aug 2020

GOING DIGITAL

Framework for creation

of official digital cur-

rency issued by RBI

ment (NaBFID) Bill

Government to

set up new DFI

financing

for infrastructure

technology

On the agenda: Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill

Allow exceptions to promote underlying

INFRASTRUCTURE FINANCING

On the agenda: National Bank for

DEEPENING INVESTMENTS

Structural changes to the

growth and employment

mining sector to drive

On the agenda: Amendments to

get top priority in the Union Budget

and policy support amid a once-in-a-

About 40% of 550 respondents to the

pre-budget expectations survey con-

ducted by the Associated Chambers of

Commerce and Industry of India (As-

socham) said the healthcare sector wo-

uld receive priority in the budget, to be

presented by finance minister Nirma-

Beyond this, about 15% saw manufac-

turing as part of the priority list for the budget makers. About 11% of the parti-

cipants felt the micro, small and medi-

um enterprises (MSME) sector would

dustry survey.

Financing Infrastructure and Develop

projects

Allow exceptions to promote underlying technology

Removal of legacy issues to improve competitiveness

While finance minister Nirmala Sitharaman is expected to present a oncein-a-century Budget today, the government has also lined up a legislative

agenda to boost infrastructure, investment and tech. ET looks at some key economic bills to be taken up during the Budget session of parliament.

Prohibit all pri-

vate cryptocur-

rencies in India

Will be principal financial

ment bank for infrastructure

Introduce global best

practices to attract

investment

Healthcare May Get Top

Priority in Budget: Survey

New Delhi: Healthcare is expected to get priority. Among those who were

2021-22 in terms of resource allocation rity to healthcare, more than two-

century pandemic, according to an in-modernise existing primary health-

institution and develop-

Our Bureau

New Delhi: Goods and service tax (GST) collections totalled nearly ₹1.2 lakh crore in January, the highest since the introduction of the tax regime, according to official data released a day ahead of budget.

GST revenue in December was ₹1.15 lakh crore. The consistent collections of over ₹1 lakh crore for the last four months and a steep increasing trend over January were "clear indicators of rapid economic recovery post the pandemic, the finance ministry said in a statement. It attributed the continued rise in collections to closer monitoring against fake billing, deep data analytics using data from multiple sources including GST, income-tax and customs IT systems, and effective tax administration.

The average vear-on-vear growth in GST revenue over the first four months in the second half of the financial year was 8%,

Legislative Agenda: Cryptocurrency, Infra, Investment

POWERING UP

es for power supply

On the

expecting the budge to give top prio-

thirds said allocation of funds to

care infrastructure would be the best

part of the Centre's healthcare policy.

are no choices other than large-scale

public investment in building primary health centres (and) hospitals

at the district, state-capital level,

Assocham general secretary Deepak Sood said. — Our Bureau

'The pandemic has taught us there

way to strengthen the sector.

About 63% felt also that

increased investment in

new primary healthcare infrastructure should be a

agenda:

to Multi-State

Societies Act

as compared to a 24% fall during the first half of the fiscal year, the ministry added. In January, the collections were 8% higher than the year-earlier month when the revenue was ₹1.1 lakh crore. During the month, revenue from import of goods was 16% higher from a year earlier. From domestic transactions including import of services, it rose 6%.

"The surge in GST collections observed during the past four months is expected to be sustained in the coming months of the current fiscal with more service sector activities like aviation, hospitality, entertainment, etc., opening up across states since January," said MS Mani, senior director at Deloitte India.

The gross GST revenue collected in January till 6pm on January 31, stood at ₹1,19,847 crore of which central GST was ₹21.923 crore, state GST was ₹29.014 crore and integrated GST was₹60,288 crore, which included₹27,424 crore collected on import of goods.

Define factoring as

financing against security

interests of any receivables

Expand scope of

the Act to include

digital markets

PENSION FOR ALL

Amendments to Pen-

sion Fund Regulatory

On the agenda:

Authority Act

Universal pension

coverage through

Strengthen PFRDA

Trust from PFRDA

FAIRCHEM ORGANICS LIMITED

Regd. Office: Plot No. A- 71, TTC Thane Belapur Road, Nea Konar Khairane Navi Mumhai - 400 709 India

Works & Office: 253/P & 312, Village Chekhala, Sanand - Kad

Email id: cs@fairchem.in Website: www.fairchem.ir

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the

Company is scheduled to be held on Monday, 8th February, 2021

to consider and approve Un-Audited Financial Results for the quarter

The said Notice may be accessed on the Company's website at

ttp://www.fairchem.in<u>and also on the websites of Stock Exchange</u> at http://www.bseindia.com and http://www.nseindia.com

Date: 30/01/2021 Chief Financial Officer & Company Secretary

For Fairchem Organics Limited.

Raien Jhaveri

Highway, Taluka Sanand, Dist. Ahmedabad - 382115 India. CIN: 1124200MH2019PLC323176

auto enrolment

On the agenda: Amendments to Factoring

Augment immediate funding for MSMEs against

On the agenda: Amendments to Competition Act

Provision for regional offices of CCI across India

subsidies to con-

sumers'

Improve com-

petitiveness &

ability to raise

ended 31st December, 2020.

Place: Chekhala, Tal. Sanand,

Dist. Ahmedabad

resources

accounts

discounted receivables

Establish governing body

for CCI to reduce burden.

Rationalise government's role &

enhance member participation

On the agenda: Amendments to Electricity Act

Facilitate self-

reliant and

democratic

co-operatives

Allow discoms to issue sub-licenc- | DBT of

Strengthen appellate tribunal (AP-

TEL) with increased membership

COOPERATIVE MANAGEMENT

bring external perspective

FOSTERING COMPETITION

Textile PLI may Offer 11% Sop to New Entrants

Kirtika.Suneja@timesgroup.com

New Delhi: The government may introduce a category called 'Greenfield' in the recently announced productionlinked incentive (PLI) scheme for textiles to encourage companies to venture into the sector.

As per the discussions, to be eligible for the scheme, the new entrants would be required to invest at least ₹500 tapered gradually to 5%. Companies

crore for which the initial benefit is likely to be 11%, which is the highest of all categories being discussed.

Incentive rate for existing companies in the sector could be **RUNUP TO THE** 9% of their incre-BUDGET mental production in the first year for companies with turnover

between ₹100-500 crore, which would be

with turnover of above ₹500 crore would be eligible for a 7% incentive rate, which would be reduced to 3% eventually. The scheme aims to create 50-60 world

class global champion companies in these

'We are looking at high potential products and those that are traded the most globally," an official said, "It is only at a proposal stage, but we want new products that can be produced and exported from India to get the incentive.

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

segments.

Regd. Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector - 3, Rohini Delhi - 110085 (India), Phones: 91-11-46800600, 46800700, Fax No.: 91-11-46800692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND

		0	Foods at	Mina Mina	Alan Englasi	Van Fradad
			r Ended		ths Ended	Year Ended
Pa	rticulars	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
			Audited			
1.	Total Income	675.98	602.00	1627.35	1874.96	2419.53
2.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary Items)	120.88	71.92	253.55	222.67	291.71
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	120.88	71.92	253.55	222.67	291.71
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	90.07	54.16	189.39	174.45	226.25
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	90.14	54.18	190.40	174.51	225.56
6.	Equity Share Capital	24.84	24.82	24.84	24.82	24.82
7.	Reserves excluding revaluation reserve	-	-	-	-	1247.58
8.	Earnings Per Equity Share of Face Value of ₹ 1/- each (in ₹)					
	Basic	3.63	2.18	7.63	7.03	9.12
	Diluted	3 63	2 18	7 62	7.02	0.10

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Nine Months Unaudited Financial

For and on behalf of the Board of Directors

Ramesh Kumar Dua **Managing Director**

FLITE /



RELAXO

CIN: L74899DL1984PLC019097

NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020 (₹ in Crore)

		Quarte	r Ended	Nine Mon	ths Ended	Year Ended
Pa	rticulars	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
				Audited		
1.	Total Income	675.98 602.00		1627.35	1874.96	2419.53
2.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary Items)	120.88	71.92	253.55	222.67	291.71
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	120.88	71.92	253.55	222.67	291.71
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	90.07	54.16	189.39	174.45	226.25
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	90.14	54.18	190.40	174.51	225.56
6.	Equity Share Capital	24.84	24.82	24.84	24.82	24.82
7.	Reserves excluding revaluation reserve	-	-	-	-	1247.58
8.	Earnings Per Equity Share of Face Value of ₹ 1/- each (in ₹)					
	Basic	3.63	2.18	7.63	7.03	9.12
	Diluted	3.63	2.18	7.62	7.02	9.10

Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly / Nine Months Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.relaxofootwear.com.

DIN: 00157872

| Delhi, January 30, 2021

RELAXO

POWER DISTRIBUTION

la Sitharaman on Monday.

Sitharaman **Likely to Unveil** ₹3L Cr Reforms **Scheme Today**

Our Bureau

New Delhi: Finance minister Nirmala Sitharaman is likely to unveil a ₹3-lakh crore reforms scheme for the power distribution sector when she gives her Budget speech on Monday, a senior official told ET.

The scheme is likely to have a grant component of ₹1.02 lakh crore, with the remaining to be funded by states and financial institutions, said the official, who did not wish to be named. The proposed five-year programme will have two major components -implementation of smart prepaid meters and discoms loss reduction trajectory.

The government is likely to advocate implementation and operation of prepaid smart meters

through private partnerships. "The power distribution companies will have to progressively keep improving their performance as agreed under loss reduction trajectory to get the allocations under the scheme. A viable electricity distribution sector is the key focus of all the government programmes now," the

official cited earlier said. With the proposed scheme, the central government would try to club improvement in discoms' financial viability with infrastructure, he said. The loss reduction targets would be set state-wise and money will be disbursed gradually when they are achieved.

> For full report, go to www.economictimes.com

Request for Calling Expression of Interest for

SALE UNDER REGULATION 32(e) OF THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (LIQUIDATION PROCESS) REGULATIONS, 2016

THROUGH COMPETITIVE BIDDING OF M/S. GUPTA INFRASTRUCTUR (INDIA) PVT. LTD.

IN LIQUIDATION (CIN U45200MH2005PTC157219)

BRIEF DISCRIPTION

CORPORATE DEBTOR HAS CONSTRUCTED AND OPERATING A SHOPPING MALL CUM MULTIPLEX COMMONLY KNOWN BY THE NAME "CITY CENTRE MALL" (WITH PARTIAL BARE SHELL STRUCTURE AND PARTIALLY NON-RELINQUISHED PORTION BY SOME STAKEHOLDERS) AT DEVENDRA NAGAR, PANDHRI, RAIPUR, CHHATISGARH ON A LAND LEASED BY RAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ON

"BOOT" BASIS

RESERVE PRICE RS.165,40,20,000 (RUPEES ONE HUNDRED & SIXTY-FIVE CRORE FORTY LAC TWENTY THOUSAND ONLY) DATE OF E-AUCTION - 02ND MARCH 2021

LAST DATE OF OBTAINING DETAILS – 20[™] FEBRUARY 2021 (Liquidator reserves the rights to extend these dates at his discretion) FOR FURTHER DETAILS PLEASE GET IN TOUCH WITH UNDERSIGNED

CA ATUL RAJWADKAR

PLACE: NAGPUR DATE: 01.02.2021 LIQUIDATOR IN THE MATTER OF GUPTA INFRASTRUCTUR (I)

PVT. LTD. - IN LIQUIDATION REGN. NO.: IBBI/IPA-001/IP-P00152/2017-18/10321 EMAIL ID FOR COMMUNICATION: liquidatorgiipl@gmail.com

REGISTERED ADDRESS: 47, HINDUSTHAN COLONY, WARDHA ROAD, NAGPUR-440015

REGISTERED EMAIL: vervecapital@gmail.com 9890426336 Note:-

Details mentioned above are on the basis of details with the Liquidator. Interested parties are requested to do their due diligence at their own

Nothing contained herein shall constitute a binding offer or a commitment to sell the Corporate Debtor as a going concern or any of its assets under IBC, 2016 or its relevant Regulation. Bidders must note that the aforementioned auction process is being

conducted in accordance with the Insolvency and Bankruptcy Code ("Code") and the relevant regulations thereunder. Any assets realised/not relinquished by existing charge holders in

pursuance of Section 52 of the Code are excluded from the ambit of the auction process being conducted by the liquidator. The liquidator reserves the right, without giving reasons, at any time to

amend and/or annul this invitation.

GODAWARI POWER & ISPAT LIMITED Regd. Office: 428/2, Phase-I, Industrial Area, Siltara, Raipur (C.G.) Corporate Office: Hira Arcade, Pandri, Raipur (C.G.) 492001 CIN.: L27106CT1999PLC013756, Tel: 0771-4082000, Website: www.godawaripowerispat.com, E-mail: yarra.rao@hiragroup.com

PERFORMANCE HIGHLIGHTS (CONSOLIDATED)

Turnover **35%**

163%

448%

Interim Dividend **50%**

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020 (Rs.in Crores)

S.	Particulars	3 MONTHS ENDED 9 MONTHS ENDED					YEAR ENDED
No.			Unaudited				
		31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
1	Total income from Operations	1132.49	967.49	841.51	2812.29	2505.44	3293.18
2	Earnings Before Interest, Depreciation Tax						
	(EBITDA)	347.86	235.21	132.29	741.89	475.64	628.90
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or						
	Extraordinary items)	275.55	155.57	47.19	507.72	211.70	280.07
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or						
	Extraordinary items)	275.55	155.57	47.19	507.72	211.70	269.79
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or						
	Extraordinary items)	166.36	103.76	30.34	320.48	140.21	174.43
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for						
	the period (after tax) and Other Comprehensive	180.20	112.95	33.66	348.83	140.02	166.11
	Income (after tax)]						
7	Paid Up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	34.11	34.11	34.11	34.11	34.11	34.11
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued						
	operations)(beforeand after extraordinary items) -						
	(a) Basic	45.64	29.55	8.41	88.39	37.86	47.33
	(b) Diluted	45.64	29.55	8.41	88.39	37.86	47.33
The	e additional Information on Standalone Financial Results is as below:	:	•			•	

		•						
S.	Particulars	3 MONTHS ENDED 9 MONTHS ENDED YEAR						
No.	r articulars			Unaudite	d		Audited	
110.		31.12.2020	31.12.2020 30.09.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019					
1	Total Income From Operations	954.47	876.96	719.73	2406.29	2129.89	2776.90	
2	Earnings Before Interest, Depreciation Tax (EBITDA)	280.03	200.42	96.98	577.68	337.30	442.90	
3	Profit/(Loss) before tax	292.56	144.28	35.65	476.00	149.66	197.64	
4	Profit/(Loss) after tax	203.03	94.17	21.09	321.82	94.45	121.40	
NI.	A The Circuit Decults of the common forth a superior of	المالة من من المالية المالية	1 0 1 - 4	D	000 6		la 4la a. A al:4	

Notes: 1.The Financial Results of the company for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on **30th January, 2021** and the Limited Review of the

2. The above is an extract of the detailed format of financial results filed for the quarter & nine months ended 31st December, 2020 filed with stock exchanges under regulation 33 & other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the financial results are available on the stock exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.godawaripowerispat.com) For and on behalf of Board of Directors

Abhishek Agrawal Executive Director

Place: Raipur Date: 30.01.2021

PEE CEE COSMA SOPE LTD.

CIN: L24241UP1986PLC008344

Regd Office:G-10/8, Padam Deep, Sanjay Place, Agra-282002, Uttar Pradesh Tel.No. 0562-2527332, Fax.No. 0562-2527329, e-mail: pccosmalisting@doctorsoap.com

PUBLIC NOTICE

Pursuant to Regulation 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 13th February, 2021 inter alia to approve and take on record the Un Audited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2020. Trading Window for dealing in securities of the Company is under closure from 3rd January, 2021 and will remain closed till the end of 48 hours after the Results are made public on 13th February, 2021. The Notice is also available on the Stock Exchanges website www.bseindia.com and company's website For & on behalf of the Board www.doctorsoap.com PEE CEE COSMA SOPE LIMITED

ANKUR JAIN Place: Agra (Managing Director) DIN:00172356 Date : 30.01.2021

Turnover

35%

Particulars

(EBITDA)

Extraordinary items)

Extraordinary items)

Income (after tax)]

(b) Diluted

Particulars

Total Income From Operations

same has been carried out by the Auditors.

Profit/(Loss) before tax

Profit/(Loss) after tax

Total income from Operations

Earnings Before Interest, Depreciation Tax

the period. (after tax) and Other Comprehensive

operations)(beforeand after extraordinary items) -

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or

Paid Up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)

Earnings Before Interest, Depreciation Tax (EBITDA)

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued

The additional Information on Standalone Financial Results is as below:

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited (भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयक्त उपक्रम) (A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.) CIN No. L40101HP1988GOI008409

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors is scheduled to be held on Friday, 12th February, 2021 at New Delhi to inter alia consider the Financial Results of the Company for the Third Quarter ending 31st December, 2020 and to declare interim dividend for the FY 2020-21, if any.

NOTICE

The said Notice may also be accessed on the Company's Website at http://www.sjvn.nic.in and also on the websites of the Stock Exchanges at http://www.bseindia.com and http://www.nseindia.com For and on behalf of SJVN Ltd.

Date: 01.02.2021 Soumendra Das

Interim

Dividend

50%

31.12.2019

2505.44

475.64

211.70

211.70

140.21

140.02

34.11

37.86

37.86

31.12.2019

2129.89

337.30

149.66

94.45

For and on behalf of Board of Directors

Abhishek Agrawal

Executive Director

9 MONTHS ENDED

31.12.2020

2812.29

741.89

507.72

507.72

320.48

348.83

34.11

88.39

88.39

31.12.2020

2406.29

577.68

476.00

321.82

9 MONTHS ENDED

(Rs In Crores)

YEAR ENDED

Audited

31.03.2020

3293.18

628.90

280.07

269.79

174.43

166.11

34.11

47.33

47.33

YEAR ENDED

Audited

31.03.2020

2776.90

442.90

197.64

121,40

Place: Shimla Company Secretary Regd. Office: SJVN Corporate Office Complex, Shanan, Shimla - 171006 (HP) Tel: 0177-2660070, Email: investor.relations@sjvn.nic.in, Website: www.sjvn.nic.in

CONSOLIDATED

Unaudited

31.12.2019

841.51

132.29

47.19

47.19

30.34

33.66

34.11

8.41

8.41

Unaudited

31.12.2019

719.73

96.98

35.65

21.09

GODAWARI POWER & ISPAT LIMITED

Regd. Office: 428/2, Phase-I, Industrial Area, Siltara, Raipur (C.G.) Corporate Office: Hira Arcade, Pandri, Raipur (C.G.) 492001

CIN.: L27106CT1999PLC013756, Tel: 0771-4082000, Website: www.godawaripowerispat.com , E-mail: yarra.rao@hiragroup.com

PERFORMANCE HIGHLIGHTS (CONSOLIDATED)

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020

31.12.2020

1132.49

347.86

275.55

275.55

166.36

180.20

34.11

45.64

45.64

31.12.2020

954.47

280.03

292.56

203.03

Notes: 1. The Financial Results of the company for the guarter and nine months ended 31st December, 2020 have been reviewed by the Audit

Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 30th January, 2021 and the Limited Review of the

2. The above is an extract of the detailed format of financial results filed for the quarter & nine months ended 31st December, 2020 filed with stock exchanges under regulation 33 & other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the financial results are available on the stock exchange websites (www.bseindia.com and

448%

3 MONTHS ENDED

30.09.2020

967.49

235.21

155.57

155.57

103.76

112.95

34.11

29.55

29.55

3 MONTHS ENDED

30.09.2020

876.96

200.42

144.28

94.17

EBITA

163%



THE MYSORE LAMP WORKS LTD.

Date :01.02.202

(A Public Sector Enterprise of Government of Karnataka) Old Tumkur Road, Malleswaram West, Bengaluru - 560 055 Tel.: 080-23340182 e-mail: mylampsblr@gmail.com CIN: UI7111KA1936PLC000182

No.: IC/MLWL/BV/2020-21/1

Tender for Selection of Firm for carrying out Business Valuation of MLWL

(Through E-Procurement only)

The Mysore Lamp Works Limited is a Public Sector Enterprise of the Government of Karnataka, which was engaged in manufacturing and trading of various types of lamps and lamp components. This PSU is not in operation since about 20 years and now the State Government proposes to utilise the land assets of the Company for novel public projects. In view of this, it is necessitated to carryout Business Valuation of the Company through a reputed valuation firm.

Tender Document containing details of eligibility criteria scope of work and other terms and conditions may be obtained from the website of Department of e-procurement. Government of Karnataka. The last date for submission of Tenders at http://www.eproc.karnataka.gov.in is 19.02.2021 by 4.30 p.m. MLWL reserves the right to reject any or all Proposals without assigning any reason, whatsoever.

Sd/- Managing Director, MLWL



CIN:L51109WB1995PLC075801 Regd. off.: 112 Raja Ram Mohan Roy Sarani, Kolkata - 700009

Tel.: 033-2219 0085, Fax: 033-2241 8401 Website: www.bcril.com; E-mail: investors@bcril.com EXTRACT OF THE STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND 9 MONTHS ENDED DECEMBER 31ST 2020

Quarter Quarter Nine Months ended ended on ended December December December **Particulars** 31, 2020 31, 2020 31, 2019 Unaudited Unaudited Unaudited 1. Total Income from Operations (net) 2,137.94 3,972.95 3,124.42 2. Net Profit / (Loss) before Tax, exceptiona 310.27 657.27 260.21 and/or extra ordinary items 3. Net Profit / (Loss) before Tax (after 325.27 238.64 exceptional and/or extra ordinary items) 631.5

4. Net Profit / (Loss) for the period after tax 474.83 177.34 (after exceptional and/or extraordinary 248.02 Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) 6. Equity Share Capital 1672.36 1672.36 1672.36 7. Reserve excluding Revaluation Reserves 4810.39 (as per balance sheet as on 31st March, 8. Earnings Per Share (of ₹ 10/- each): 2.84 a. Basic 2.84 b. Diluted

NOTES: The above is an extract of the detailed format of unaudited quarterly financial results

Place: Kolkata

Dated: 30.01.2021

filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and on the website of the Company at www.bcril.com For and on behalf of the Board of Directors of

BCPL Railway Infrastructure Limited Jayanta Kumar Ghosh Managing Director

(DIN: 00722445)

envisaged by the Board.

J. KUMAR INFRAPROJECTS LIMTIED

CIN: L74210MH1999PLC122886 16-A, Andheri Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (W), Mumbai-400 058 Tel. No: (022) 6774 3555 Fax No: (022) 2673 0814

NOTICE

Website: www.ikumar.com

Notice is hereby given that Board Meeting of the Company will be held on Tuesday, 9th February, 2021, inter alia, to consider and take on record the Un Audited Financial Results for the third quarter and nine months ended on 31" December, 2020.

The said notice is also available on the website of the Company at www.ikumar.com as well as on the website of the BSE at www.bseindia.com and at the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

> For J. Kumar Infraprojects Limited Poornima Reddy Company Secretary

Can Fin Homes Ltd (Sponsor: CANARA BANK) HOME LOANS + DEPOSITS

Translating Dreams into Reality

Date : 29" January, 2021

Place : Mumbai

Can Fin Homes Ltd. Registered Office: 29/1, Sir M N Krishna Rao Road, Basavanagudi, Bangalore 560 004 E-mail: development@canfinhomes.com Website: www.canfinhomes.com Tel: 080-26567655. Fax: 080-26565746 CIN:L85110KA1987PLC008699

RATE OF INTEREST ON PUBLIC **DEPOSITS W.E.F 01/02/2021**

Rated MAAA by ICRA (Stable Outlook)

	Deposits	upto Rs.1 cr	Bulk
Period in Months	General Rates	For Senior Citizens	Deposits: > Rs. 1 cr
12	6.00%	6.50%	6.00%
13-36	6.25%	6.75%	6.25%
37-48	6.25%	6.75%	6.25%
49-60	6.25%	6.75%	6.25%

* Monthly/Quarterly/half yearly/yearly interest payment options available (Minimum Deposit - Rs. 2,00,000/-) Minimum period of deposit - 12 months

** Interest compounded quarterly

(Minimum Deposit – Rs. 20,000/-) Minimum period of deposit – 12 months

This abridged advertisement appears further to the statutory deposit advertisement published by the Company in Financial Express and Kannada Prabha dated 27/08/2020. All other terms and conditions in the said advertisement remain unchanged.

NOTICE

Notice is hereby given in terms of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, that a Meeting of the Board of Directors of the Company (the "Board") is scheduled to be held on Friday, 12th February, 2021 to, inter alia, consider standalone and consolidated Unaudited Financial Results for the quarter/period ended 31st December, 2020.

The details of the said Results as approved by the Board will be available on the website of the Company (i.e. www.finolex.com) and on the websites of BSE Limited (i.e.www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (i.e.www.nseindia.com).

> For Finolex Cables Limited R. G. D'SILVA

Date: 1st February, 2021 Company Secretary & President (Legal) Regd. Office: 26-27, Mumbai-Pune Road,

Place: Pune

Pimpri, Pune 411 018 (India) Tel: 020-27475963 | Fax: 020-27470344

CIN: L31300MH1967PLC016531 Visit us at : www.finolex.com | Email : sales@finolex.com

Cables Limited

Note:

Place: Raipur

Date: 30.01.2021

a. The financial results for the nine months ended December 31, 2020 and audited financial statements for years ended March 31, 2020, March 31, 2019 and March 31, 2018 have been prepared in accordance with Ind-AS notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 to the extent applicable ("Ind-AS Financial Statements")

www.nseindia.com) and on the Company's website (www.godawaripowerispat.com)

- b. For the above purpose, "Net Worth" means the total shareholder's fund reduced by Capital Reserve, Capital Redemption Reserve, Cash Flow Hedge Reserve through OCI and miscellaneous expenditure not written off, as per the audited balance sheet, but not included reserves created out of revaluation of assets, write back of depreciation and amalgamation.
- c. Total income and Total expenses for the nine months ended 31st December 2020 are as per published. quarterly results (unaudited) prepared as per IND-AS.
- d. The term debt as used herein includes secured loans, working capital loans obtained by the Company from the bank, unsecured loan obtained by the Company from the director and it does not include normal trade payable and other current liabilities etc. total debts as at 31st December 2020 have been taken from unaudited books of account since this information is not required to be furnished in the unaudited financial results for the Nine month ended 31st December 2020
- e. The above information is based on audited financial statements of Freshtrop fruits Limited as at 31st March 2020, 31st March 2019 and 31st March 2018, unaudited financial statement of Freshtrop Fruits Limited as at 31st December 2020 certified by the management of Freshtrop Fruits Limited and unaudited financial results for the nine months ended December 31, 2020.

Key Financial Batins

Sr. No.	Particulars	Nine Months Ended December 31, 2020 Unaudited	Year Ended			
			March 31, 2020 Audited	March 31, 2019 Audited	March 31, 2018 Audited	
						1
2	Earnings/(Loss) per Share - Diluted (₹)	4.78	3.89	11.32	6.84	
3	Book Value Per Share (₹)	67.09	58.39	62.93	51.56	
4	Return on Net worth (%) (excluding OCI)	7.12%	6.66%	17.98%	13.26%	
5	Return on Net worth (%) (including OCI)	6.21%	7.51%	20.33%	10.46%	
6	Debt-Equity Ratio Total Debt/ Net worth	0.15	0.47	0.51	0.66	

- 1 Earnings/(Loss) per share is calculated as profit after tax (before OCI item) for the relevant year/period divided by average number of equity shares outstanding during the year/period.
 - 2 Book value per Share = Net Worth divided by average number of equity shares outstanding during the
 - 3 Return on Net worth = Profit/(Loss) after Tax/ Net Worth
- 4 Debt-Equity Ratio = Total Debt /Net Worth
- DETAILS OF ESCROW ACCOUNT OPENED AND THE AMOUNT DEPOSITED THEREIN
- In accordance with Regulation 20 of the Buyback Regulations and towards security for performance of its obligations under the Buyback Regulations, the Company has entered into an escrow agreement dated January 28, 2021 ("Escrow Agreement") with the Merchant Banker and Axis Bank Limited ("Escrow Bank") pursuant to which the Company has opened an escrow account titled FRESHTROP FRUITS LIMITED -BUYBACK OFFER 2021 - ESCROW ACCOUNT ("The Escrow Account"). The Company has authorized the Merchant Banker to operate the Escrow Account in compliance with the Buyback Regulations and the Escrow Agreement, The Company has deposited in the Escrow Account, cash aggregating to ₹ 200 lakhs (Rupees Two Crores only), being 29.63% of the Maximum Buyback Size ("Escrow Amount") in accordance with the Buyback Regulations
- The funds in the Escrow Account may be released for making payment to the Members subject to at least 2.5% of the Maximum Buyback Size remaining in the Escrow Account at all points in time.
- If the Company is not able to complete the Buyback equivalent to the Minimum Buyback Size, except for the reasons mentioned in the Buyback Regulations, the amount held in the Escrow Account (up to a maximum of 2.5% of the Maximum Buyback Size), shall be liable to be forfeited and deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI or as directed by SEBI in accordance with the Buyback Regulations.
- The balance lying to the credit of the Escrow Account will be released to the Company on completion of all obligations in accordance with the Buyback Regulations
- LISTING DETAILS AND STOCK MARKET DATA
- The Equity Shares are currently listed and traded on the BSE Limited. The high, low and average market prices of the Equity Shares for the preceding three years and the monthly
- high, low and average market prices of the Equity Shares for the six months preceding the date of this Public

Period	High Price (Rs)	Date of High Price	Number of shares traded on that date	Low Price (Rs)	Date of Low Price	Number of shares traded on that date	Average Price (Rs)	Total Volume Traded in the period (No. of shares)
PRECEDING	3 YEARS							- Market State Committee
2017-2018	218.00	October 17 & 18, 2017	198958 & 65180	85.00	June 6, 2017	40312	134.95	9246968
2018-2019	197.80	January 14, 2019	91695	91.95	July 19, 2018	13189	142.48	5804943
2019-2020	178.00	April 12, 2019	99744	36.00	March 19, 2020 & March 24, 2020	8599 & 4669	101.83	2368077
PRECEDING	6 MONTHS				8 8			
July 2020	66.00	July 1, 2020	7962	50.00	July 3, 2020	9229	57.36	329983
August 2020	78.70	August 25, 2020	71138	53.25	August 3, 2020	12396	62.31	596447

66.20 September 21 17857 53.05 September 21156 58.72 September 24, 2020 2020 2020 62.90 12315 55.00 1053 57.90 129998 October October 15, October 2020 2020 28, 2020 69.75 November 20 11215 17466 60.70 398170 November 50.55 November 2020 2020 12, 2020 December 75.00 December 27162 62.10 December 22217 67.31 478853 2020 2020 21, 2020

(Source: www.bseindia.com)

Note: High and Low price for the period are based on intraday prices and Average Price is based on average of daily closing price of the period.

- 9.3 There has been no change in the Equity Share capital of the Company including by way of bonus issue, rights issue or consolidation or split of Equity Shares during the period for which data has been disclosed in the table above except by way of Buyback of 10,00,000 Equity Shares completed by the Company during the calendar vear 2019.
- 9.4 The closing market price of the Equity Shares on January 29, 2021, i.e., the first trading day after the Date of the Board Meeting, was ₹ 69.35 per Equity Share on the BSE.

(Source: www.bseindia.com) 10 PRESENT CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

10.1 The capital structure of the Company as on the date of this Public Announcement and the proposed capital structure of the Company post the completion of the Buyback is set forth below

Particulars	As on the date of PublicAnnouncement (₹ In lakhs)	Post Completion of Buyback (₹ In lakhs)
Authorized Share Capital		
1,50,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each	1500.00	1500.00
Total	1500.00	1500.00
Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
1,11,45,000 Equity Shares of ₹ 10 each	1114.50	1039.50
Total	1114.50	1039.50

subscribed and paid-up capital may differ depending upon the actual number of Equity Shares bought back. 10.2 As on the date of this Public Announcement, there are no Equity Shares which are partly paid up or with call-in arrears and there are no outstanding instruments convertible into Equity Shares.

10.3 The shareholding pattern of the Company as on the date of this Public Announcement (pre-Buyback) and the proposed shareholding pattern of the Company post the completion of the Buyback is given below

	Pre B	uyback	Post Buyback		
Category of Shareholder	Number of Equity Shares	% to the existing Equity Share capital	Number of Equity Shares	% to post Buyback Equity Share capital	
(A) Promoter & Promoter Group	62,55,333	56.13	62,55,333	60.18	
(B) Public	48,89,667	43.87		39.82	
(C1) Shares underlying DRs	0	0.00	41 20 007		
(C2) Shares held by Employee Trust	0	0.00	41,39,667		
(C) Non Promoter -Non Public	0	0.00			
Total	1,11,45,000	100.00	1,03,95,000	100.00	

subscribed and paid-up capital may differ depending upon the actual number of Equity Shares bought back. As per Regulation 16(ii) of the Buyback Regulations, the Buyback shall not be made from Promoters and Promoter Group of the Company, Further, as per Regulation 24(i)(e) of the Buyback Regulations, the Promoters, Promoter Group and their associates have not dealt in the Equity Shares or other specified securities of the Company either through the Stock Exchange or off-market transactions (including inter-se transfer of Equity Shares among the Promoters) from the date of the Board meeting till the date of the Public Announcement and shall not deal in the Equity Shares or other specified securities of the Company either through the stock exchange or offmarket transactions (including inter-se transfer of Equity Shares among the Promoters) from the date of the Public Announcement till the closing of the Buyback.

10.4 The aggregate shareholding of the Promoter and Promoter Group of the Company as on the date of the Board Meeting at which the proposal for Buy-Back was approved and as on the date of the Public Announcement,

Sr. No.	Name of Promoter and Promoter Group Entity	No. of Equity Shares	% Shareholding
1	Ashok Vishindas Motiani	15,46,398	13.88
2	Nanita Ashok Motiani	8,55,442	7.68
3	Mayank Ramesh Tandon	4,39,676	3.95
4	Priyanka Tandon	5,80,205	5.21
5	Dipti Ashok Motiani	7,31,964	6.57
6	Freshcap Foodstuff LLP	21,01,648	18.86
	Total	62,55,333	56.13

While the Promoters and promoter group are not eligible to participate in the Buyback, depending on the number of Equity Shares bought back by the Company, their effective shareholding percentage in the Company will increase accordingly. Any increase in the percentage holding/voting rights of the Promoters is not an active acquisition and is incidental to the Buyback and falls within the limits prescribed under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 10.5 None of the persons mentioned in Paragraph 10.4 above have sold or purchased any Equity Shares of

the Company (either through the stock exchange or off market transactions) during the twelve months

- preceding the date of the Public Announcement. 11 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE LIKELY IMPACT OF THE BUYBACK ON THE
- 11.1 The Buyback is expected to enhance overall long term members' value for continuing members, without compromising on the future growth opportunities of the Company, as well as provide an exit opportunity to the public shareholders. The Buyback is not likely to cause any material adverse impact on the earnings of the Company, except a reduction in the treasury income which the Company could have otherwise earned from investments. The Company will also bear the cost of the Buyback transaction.

- 11.2 The Buyback is proposed, considering the accumulated surplus funds available with the Company being in excess of the surplus amount needed to be retained by the Company for future growth of the Company as
- current investments including Non-Convertible Debentures and mutual funds, and will be drawn out of free reserves, securities premium account of the Company or such other source, in accordance with Section 68(1) of the Companies Act and Regulation 4(ix) of the Buyback Regulations. 11.4 The Buyback may lead to reduction in outstanding Equity Shares, improvement in earnings per share and

11.3 The Buyback will be funded from the accumulated surplus funds available with the Company, in the form of

- enhanced return on equity, assuming that the Company would earn similar profits as in the past.
- 11.5 Pursuant to Regulation 16(ii) of the Buyback Regulations, the Promoters and promoter group of the Company will not participate in the Buyback. The Buyback will not result in a change in control or otherwise affect the existing management structure of the Company 11.6 Consequent to the Buyback (which excludes participation by the Promoters and promoter group) and
- based on the number of Equity Shares bought back by the Company from the members including members resident outside India, erstwhile overseas corporate bodies, foreign portfolio investors and non-resident Indian members, the shareholding pattern of the Company would undergo a change; however public shareholding shall not fall below 25% of the total fully paid up Equity Share capital of the Company. 11.7 In accordance with Section 68(2)(d) of the Companies Act, the ratio of the aggregate of secured and
- unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice the paid up Equity Share capital and free reserves post the Buyback. 11.8 In compliance with the provisions of the Buyback Regulations, the Company shall not raise further capital for a period of 1 (one) year from the expiry of the buyback period, except in discharge of its subsisting
- obligations. Further, the Company shall not issue any Equity Shares or other securities including by way of bonus issue or convert any outstanding employees stock options/outstanding instruments into Equity Shares, till the date of closure of the Buyback in accordance with the Companies Act and the Buyback 11.9 Unless otherwise determined by the Board or as may be directed by the appropriate authorities, the
- Buyback will be completed within a maximum period of 6 (six) months from the date of opening of the Buyback. In accordance with Buyback Regulations, the Company shall not withdraw the Buyback post
- 11.10 Consideration for the Equity Shares bought back by the Company shall be paid only by way of cash through normal banking channels to the Company's Broker.
- 12 STATUTORY APPROVALS 12.1 Pursuant to Sections 68, 69, 70, and all other applicable provisions of the Companies Act and applicable Rules thereunder and the provisions of the Buyback Regulations, and article 73 of the articles of association of the Company, the Company has obtained the Board approval, as mentioned above.
- 12.2 The Buyback from each Member is subject to all statutory consents and approvals as may be required by such Member under applicable laws and regulations. The Members shall be solely responsible for obtaining all such statutory consents and approvals (including, without limitation the approvals from the Reserve Bank of India, if any) as may be required by them in order to sell their Equity Shares to the Company pursuant to the Buyback. Members would be required to provide copies of all such consents and approvals obtained by them to the Company's Broker.
- 12.3 The Buyback shall be subject to such necessary approvals as may be required, and the Buyback from erstwhile overseas corporate bodies and other applicable categories shall be subject to such approvals of the Reserve Bank of India, if any, under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations framed thereunder.
- 12.4 To the best of the knowledge of the Company, no other statutory approvals are required by it for the Buyback as on the date of this Public Announcement. Subject to the obligation of the Members to obtain the consents and approvals necessary for transfer of their Equity Shares to the Company as set out in Paragraph 12.2 of Part B above, the Company shall obtain such statutory approvals as may be required, from time to time, if any, for completion of the Company's obligations in relation to the Buyback.
- COLLECTION AND BIDDING CENTRES
- 13.1 The Buyback will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchange using their nationwide trading terminals. Therefore, the requirement of having collection and bidding centres is not applicable.
- COMPLIANCE OFFICER AND REGISTRAR TO THE OFFER/ INVESTOR SERVICE CENTRE
- Mr. Ronak Dhruve, Company Secretary & Compliance Officer of the Company, has been appointed as the Compliance Officer for the Buyback in terms of Regulation 24(iii) of the Buyback Regulations. Address: Freshtrop Fruits Limited, A-603, Sapath - IV, Opp. Karnavati Club, SG Highway, Ahmedabad - 380015. Tel: +91-79-40307050-57, Email: secretarial@freshtrop.com
- 14.2 Bigshare Services Private Limited, having its office at 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (E), Mumbai- 400059 Tel: +91-22- 6263 8200; Fax: +91-22-6263 8280; E-mail: buybackoffer@bighsareonline.com; Contact Person; Mr. Arvind Tandel; Website:www. bigshareonline.com; SEBI Registration No: INR000001385, is appointed as the investor service centre for the purposes of the Buyback, in terms of Regulation 24(iii) of the Buyback Regulations. MANAGER TO THE BUY-BACK



misleading information

Place: Ahmedabad

(DIN: 00124470)

711, Mahakant, Opp. V S Hospital, Ellisbridge, Ahmedabad - 380006 Tel: +91-79-2657 7571/2657 5337 | Fax: +91-79-2657 5731 Email: info@charteredcapital.net | Website: www.charteredcapital.net Investor Grievance Email: investor.relation@charteredcapital.net Contact Person: Mr. Manoj Kumar Ramrakhyani/ Mr. Sagar Bhatt SEBI Registration No.: INM000004018 Corporate Identity Number: L45201GJ1986PLC008577

contained in this Public Announcement and any advertisements, circulars, brochures, publicity materials

etc. which may be issued in relation to the Buyback and confirms that the information in such documents

contain and will contain true, factual and material information and does not and will not contain any

DIRECTORS' RESPONSIBILITY As per Regulation 24(1)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for the information

Chartered Capital And Investment Limited

For and on behalf of the Board of Directors of Freshtrop Fruits Limited Ashok V Motiani Chairman and Managing Director

Nanita A Motiani Whole Time Director (DIN: 00787809)

Ronak Dhruve Company Secretary (M. No: A47997) Date: January 29, 2021

Sd/-